



### By E-filing

REF:TEIL:SE:	Date: 23 <sup>rd</sup> August, 2024
BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd.,
P.J. Tower,	Exchange Plaza,
Dalal Street, Fort,	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
MUMBAI - 400 001	MUMBAI - 400 051
Thru: BSE Listing Centre	Thru: NEAPS
STOCK CODE: 532356	STOCK CODE: TRIVENI
(Listing Obligations and Di-	30 of the Securities and Exchange Board of India sclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Open Offer Advertisement dated August 22, 2024

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI LODR Regulations, as amended, we hereby enclose copies of the relevant newspapers extracts regarding publication of Post Offer Advertisement dated August 22, 2024 under regulation 18(12) of SEBI (SAST) Regulation, 2011 in all editions of 'Financial Express' and 'Jansatta' (English and Hindi newspapers), 'Harit Shakti' (Hindi daily published from Shamli, Uttar Pradesh) and 'Navshakti' (Marathi daily published from Mumbai) today i.e. August 23, 2024, in connection with the Open Offer made by the Company of Sir Shadi Lal Enterprises Limited from its Shareholders.

published on August 23, 2024 in connection with Sir Shadi Lal Enterprises Ltd.

We request you to take the above information on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Triveni Engineering & Industries Limited

Geeta Bhalla

Group Vice President & Company Secretary

M.No.A9475

Encl: As above

**FINANCIAL EXPRESS** 



## PHANTOM DIGITAL EFFECTS LIMITED

CIN: L92100TN2016PLC103929 Regd. Office: 6th Floor, Tower B, Kosmo One Tech. Plot No.14, 3rd Main Road, Ambattur, Chennai - 600058, Tamilnadu, India. Tel.: 044-4384 6228, Email ID: cs@phantom-fx.com, Website: www.phantomfx.com

### INFORMATION REGARDING THE 8th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

The Eighth (8") Annual General Meeting ("AGM") of the members of Phantom Digital Effects Limited ('the Company'), will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on Thursday the 19" day of September, 2024 at 11.00 a.m. (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

The Notice of the AGM and the audited financial statements for the financial year 2023-24, along with the Boards' Report Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent electronically to those members of the Company, whose e-mail address is registered with the Company / Company's Registrar and Transfer Agent, Purva Sharegistry India Private Limited (RTA) / Depository Participant(s). The Notice of the AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.phantomfx.com and on the website of the Stock Exchange i.e., National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through the VC facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the notice. Members attending the AGM through VC shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies

### Manner of registering/updating e-mail address / bank account:

In order to send Notice, Annual Report and other Communications to the members in electronic form, the Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same immediately in respect of shares held in electronic form with the depository through their depository participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to RTA at support@purvashare.com

### Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through an electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting, including voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast votes by remote e-voting will be able to vote electronically at the AGM.

### Joining the AGM through VC/OAVM:

Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and the manner of casting a

vote through remote e-voting or voting at the AGM. The above information is being issued for the information and the benefit of all the members of the Company as per the compliances.

> By order of the Board of Directors Sd/

Place : Chennai Date : August 23, 2024

Poornima Raghu Company Secretary and Compliance Officer

### FORM-C

NOTICE is hereby given that Share Certificate No(s) 13390, 202056 for 200 share(s) bearing distinctive nos 35337801-35337900, 63073221-63073320 (both inclusive) of TIMKEN INDIA Ltd., having its Registered Office at 39-42, Electronic City Phase II, Hosur Road, Bengaluru, Karnataka, 560100, registered in the name(s) of Sayan De has I have been lost. The shares have been transferred to the Investor Education & Protection Fund (IEPF)

I/We, being the Claimant(s) shall be applying to the Company for issue of the share certificates in lieu of the original reported lost. Any person having any objection to the issue of the Shares covered in the said original share certificate(s) to the applicant / claimant, is requested to lodge his / her objection thereto with the Company at the above address or with the Issuer Company i.e. Timken India Ltd. 39-42. Electronic City / Phase II/Hosur Road, Bangalore-560 100 or, Registrars, C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.

Name & Address of the Applicant(s) Sayan De Block-G. Flat-8. Manicktala Housing Estate, VIP Road, Kankurgach Kolkata, West Bengal, 700054 Place: Bengaluru, Karnataka Date: 23.08.2024

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF

### SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED

Registered Office: Upper Doab Sugar Mills, Shamli-247 776 (U.P.) Corporate Office: 8th Floor, Express Trade Towers, Plot No.15-16, Sector 16 A, Noida-201301 (U.P.) Corporate Identification Number (CIN): L51909UP1933PLC146675, Tel No.: 01398-250082 | Website: www.sirshadilal.com

Open offer for acquisition of up to 13,65,000 (Thirteen Lakh Sixty Five Thousand) ("Offer Shares") fully paid-up equity shares of face value of ₹10 (Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares"), representing 26% (twenty six per cent) of the Voting Share Capital of Sir Shadi Lal Enterprises Limited ("Target Company") from the Shareholders of the Target Company, by Triveni Engineering and Industries Limited ("Acquirer") pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI (SAST) Regulations" and reference to a particular "Regulation" shall mean the particular regulation of the SEBI (SAST) Regulations) (the "Offer" or "Open Offer").

(SAST) Regulations in respect of the Open Offer made by the Acquirer. The Detailed Public Statement with respect to the offer that was published in 'Financial Express' (English- all editions), 'Jansatta' (Hindi- all editions), "Harit Shakti" (Hindi- Shamli edition) and 'Navshakti' (Marathi- Mumbai Edition) on February 06, 2024 ("DPS"). The First Corrigendum to the DPS dated February 10, 2024, the Second Corrigendum to the DPS dated March 11, 2024 and the Third Corrigendum to the DPS dated June 22, 2024 were published in the same newspapers where the DPS was published. The pre-offer advertisement cum corrigendum to the DPS dated August 1, 2024 was published in the same newspaper where the DPS was published.

This Post Offer Advertisement is being issued by Ambit Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of Acquirer pursuant to Regulation 18 (12) of the SEBI

Capitalized terms used but not defined in this Post-Offer Advertisement shall have the meaning as assigned to such terms in the Public Announcement, DPS, and/ or the Corrigenda.

Name of the Acquirer and PACs  Name of the Manager to the Offer  Name of the Registrar	Triveni Engineering and Industries Limited  Ambit Private Limited  KFin Technologies Limited
Ü	
Name of the Registrar	KFin Technologies Limited
Offer Details	
a. Date of Opening of the offer	August 2, 2024 (Friday)
b. Date of Closure of the offer	August 16, 2024 (Friday)
Date of Payment of Consideration	August 20, 2024 (Tuesday)
Details of Acquisition:	
[	b. Date of Closure of the offer

S. No.	Particulars	Proposed in Of	ffer Document		Actua	ls	
7.1	Offer Price	₹262.15		₹262.15		15	
7.2	Aggregate number of shares tendered	13,65,000			5		
7.3	Aggregate number of shares accepted	13,65	,000		5		
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share)	₹35,78,34,750		₹1,310.75		.75	
7.5	Shareholding of the Acquirers before Agreements/Public Announcement (No. & %)	N	il		Nil		
	Shares Acquired by way of Agreements						
7.6	Number	13,35	,136		13,35,1	36 <sup>\$</sup>	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	25.4	3%	25.43% <sup>\$</sup>			
	Shares Acquired by way of Open Offer						
7.7	Number	13,65,000		5			
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	26.00%		0.0001%			
	Shares acquired after Detailed Public Statement						
	Number of shares acquired	13,35,136 ₹262.15		<ul> <li>a. 13,35,136 Equity Shares representing 25.43% of the share capit acquired on March 11, 2024 for ₹262.15 per Equity Share<sup>§</sup></li> </ul>			
7.8	Price of the shares acquired						
	% of the shares acquired	25.43%				enting 36.34% of the share capital 235 per Equity Share#	
	Post offer shareholding of Acquirer						
7.9	• Number	27,00,136			32,42,8	84^	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital*	51.43	3%*		61.779	%^	
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offe	er	Post-Offer	
7.10	Number	20,07,116	6,42,116 <sup>*</sup>	20,07,11	6	20,07,116 <sup>@</sup>	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital*	38.23%	12.23% <sup>*</sup>	38.23%	)	38.23%	

\$Pursuant to completion of the Underlying Transaction on March 11, 2024, the Acquirer acquired 13,35,136 (Thirteen Lakhs Thirty Five Thousand One Hundred and Thirty Six) Equity Shares representing 25.43% (Twenty-Five point Four Three per cent) of the Voting Share Capital of the Target Company from Mr. Vivek Viswanathan and Ms. Radhika Viswanathan Hoon.

\*On June 20, 2024, the Acquirer vide a share purchase agreement completed the acquisition of 19,07,743 (Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred Forty Three) Equity Shares from Mr. Rajat Lal. Mr. Rahul Lal and Ms. Poonam Lal. Pursuant to the said transaction, and change in management of the Target Company, the Acquirer has also become the promoter of the Target Company along with the existing promoter/promoter group of the Target Company. Further, since the aggregate shareholding of the existing Promoters has been reduced to NIL, the existing Promoters of the Target Company shall be re-classified as public in accordance with applicable laws.

^The Post Offer shareholding of the Acquirer is the aggregate of 13,35,136 (Thirteen Lakhs Thirty Five Thousand One Hundred and Thirty Six) Equity Shares representing 25.43% (Twenty-Five point Four Three per cent) Voting Share Capital of the Target Company acquired from Mr. Vivek Viswanathan and Ms. Radhika Viswanathan Hoon, 19,07,743 (Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred Forty Three) Equity Shares representing 36.34% (Thirty-Six point Three Four percent) Voting Share Capital of the Target Company acquired from Mr. Rajat Lal, Ms. Poonam Lal and Mr. Rahul Lal, and 5 (Five) Equity Shares tendered by the public Shareholder in the Open Offer.

\*Assuming full acceptance under the Open Offer.

<sup>®</sup>Ms. Pooja Lal (member of the Promoter Group) sold her shareholding i.e. 5 (five) Equity Shares in the open market.

The Acquirer and its directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also accepts responsibility for the obligations of the Acquirer laid down under the SEBI (SAST) Regulations.

A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (http://www.sebi.gov.in).

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER BY THE MANAGER TO THE OPEN OFFER

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
ACUMEN at work	KFINTECH
Ambit Private Limited Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Telephone: + 91 22 6623 3030 Email: ts.openoffer@ambit.co Contact Person: Nikhil Bhiwapurkar/Siddhesh Deshmukh Website: www.ambit.co SEBI Registration No.: INM000010585	KFin Technologies Limited Selenium, Tower B, Plot No-31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi-500 032 Telangana, India Tel.: +91 40 6716 2222, Fax: +91 40 2343 1551 E-mail: ssel.openoffer@kfintech.com, Website: www.kfintech.com Investor Grievance Id: einward.ris@kfintech.com Contact Person: Mr. M. Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221

Place: Noida, Uttar Pradesh **Date:** August 22, 2024

Adfactors

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice Tender No : Re T No.96/2024-25/SE/Q

NABARD- Kunnathoor- Construction of 10 m dia intaqke well cum pump house, approach bridge, substation building, erection of pump sets and allied works EMD : Rs. 500000 Tender fee : Rs. 16540+2978 Last Date for submitting Tender 23-09-2024 02:00:pm Phone: 0474 2745293 Website: www.kwa.kerala.gov.in www.etenders.kerala.gov.in Superintending Engineer

PH Circle KWA-JB-GL-6-480-2024-25 Kollam

ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED (A Govt. of Assam Public Limited Company)

NOTICE INVITING TENDER No. APDCL/CGM (IT & Projects)/Cyber Security/VAPT/2024/1/84 Dated: 23-08-2024

E-tenders are invited for selection of a Service Provider for conducting g Cyber Security Audit/ VAPT of all IT & OT Systems of APDCL. The Z complete tender documents will be available for download in the websites www.apdcl.org and https://assamtenders.gov.in w.e.f. 27-08-2024 (11:00 Hours). 5d/- CGM (IT & Projects), APDCL

Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!

### HCP PLASTENE BULKPACK LIMITED CIN: L25200GJ1984PLC050560

Regd. Office: H.B. Jirawala House, Navbharat Soc, Nr. Panchshil Bus Stand, Usmanpura, Ahmedabad, Gujarat-380013. Tel.: +91-79-27561000 · Email: cs@hpbl.in · Website: https://hpbl.in NOTICE TO THE MEMBERS FOR 40" ANNUAL GENERAL MEETING

- NOTICE is hereby given that the 40" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Monday, 30" September, 2024 at 11.30 a.m. (IST) to transact the Business set out in the Notice calling AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder as well as Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('LODR') read with Ministry of Corporate Affairs' ("MCA") Circular No. 14/2020 dated 08" April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and Circular No.20/2020 dated 05" May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13" January, 2021, Circular No.02/2022 dated 05th May, 2022, Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 and other applicable Circulars issued by the MCA and SEBI ('relevant Circulars').
- In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report for the FY 2023-24 will be sent only by electronic mode to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at https://hpbl.in and on the website of the Stock Exchange, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.
- Manner of casting vote(s) through e-voting: (a) members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system ("e-voting"). (b) the manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in Demat mode, Physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company and website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com. (c) the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
- Manner of registering/updating email addresses: (a) members holding shares in Physical mode requested to register/update their email addresses and mobile no. by providing Form ISR-1 and ISR-2 available on the website of the Company at https://hpbl.in as well as RTA at https://www.bigshareonline.com (b) members holding shares in Demat mode, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with depository participants with whom they maintain their Demat accounts.
- 5. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instruction for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For, HCP Plastene Bulkpack Limited

Date: 22-08-2024 Place: Ahmedabad Prakash Parekh **Managing Director** 



### **Bharat Rasayan Limited** CIN: L24119DL1989PLC036264

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008 Email: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in.

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING The Notice is hereby given that: The 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday,

- the 19th day of September, 2024 at 11:00 A.M. at Hotel Golden Grand, W-1/10 West Patel Nagar, New Delhi-110008, to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM: Notice of AGM and Annual Report for financial year 2023-24 have been sent to all
- the members whose name appeared in the Register of Members as on Friday, 16th August, 2024 through electronic mode to the shareholders whose e-mail lds are registered with the Company/ Registrar & Transfer Agent (RTA) or with the Depository Participants in accordance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 20/2020, 02/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 May 5, 2022 and December 28, 2022 (hereinafter collectively referred as (\*MCA Circulars') issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021. Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2 CIR/P/2022/62 dated 13.05.2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05.01.2023 and other relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Notice of AGM and Annual Report have been sent on 22nd August, 2024 through e-mail:
- In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the shareholders holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date of i.e. Thursday, 12th September 2024, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("Remote e-Voting\*). All the shareholders are informed that:
  - The remote e-Voting shall commence on Monday, 16th September, 2024 at 9:30 A.M.
  - The remote e-Voting shall end on Wednesday, 18th September, 2024 at 5:00 P.M. The remote e-Voting shall not be allowed beyond the above said date and time.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes shareholder after
- dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Thursday, 12th September, 2024, may obtain the Login-Id and Password by sending a request to the Company/RTA/NSDL:
- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date of i.e. Thursday. 12th September, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the AGM;
- Shareholders may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change i subsequently; b) the facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM; and c) the shareholders who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again
- The Notice of AGM is available on the Company's website www.bharatgroup.co.in and also on the NSDL website www.evoting.nsdl.com;
- In case of queries or grievances, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-Voting User Manual for members at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.com or call on number at 022-48867000 and 022-24997000. Shareholders may also write to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company at investors.brl@bharatgroup.co.in or at the Registered Office address mentioned above for the grievances connected with facility for voting by
- In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and as per the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 13th September, 2024 to Thursday, 19th September, 2024 (both days inclusive) for annual closing and the Company has fixed Thursday, 12th September, 2024 as the Record Date for determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for the financial year ended March 31, 2024. For BHARAT RASAYAN LIMITED

(NIKITA CHADHA) Company Secretary

New Delhi

Date: 22.08.2024

Rajasthan State Mines & Minerals Limited (A Government of Rajasthan Enterprise), 4, Meera Marg, Udaipur – 313001 Phone: (0294) 2428743/2428764-67, Fax (0294) 2428739, Email:- rsmmlphosphate@gmail.com Date - 22.08.2024

Corrigendum No. 1

NIT No. & Date Description of Work E-Tenderno. Tender For Long term Sale of High-Quality Limestone

RSMM/CO/MKT/

2024-25/97

Dated: 22.07.2024

UBN No.

Fines (5mm - 30 mm) from backfilled dump at Sanu, District- Jaisalmer (Raj.). Last Date & Time of online Submission of offer: 10.09.2024 up to 3.00 PM Date & Time of opening of Techno Commercial Part MML2425WLOB00072 (Part-1): 11.09.2024 at 3.30 PM

Other terms & conditions have been given in detailed tender for which please visit us at our website www.rsmm.com or www.sppp.rajasthan.gov.in o eproc.rajasthan.gov.in or Head (Centralized Marketing) on above address. Raj.Samwad/C/24/4101 Dy. General Manager (P&A)



CIN: L55101DL2010PLC211816

Registered Office: Caspia Hotels Delhi, District Centre Crossing, Opp. Galaxy Toyota, Outer Ring Road, Haider Pur, Shalimar Bagh, Delhi-110088, India Corporate Office: 14th Floor, Building 10 C, Cyber City, Phase-II, Gurugram, Haryana-122002, India; Website: www.samhi.co.in;

Email: compliance@samhi.co.in; Telephone: +91 (124) 4910100 NOTICE

14™ ANNUAL GENERAL MEETING OF SAMHI HOTELS LIMITED ('COMPANY') TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ('OAVM')

- Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held through VC/ OAVM on Thursday, 19" September 2024 at 12:00 noon IST, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') read with rules made thereunder and General Circular No. 14/2020 dated 08th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020, General Circular No. 20/2020 dated 05th May 2020, followed by General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General Circular No. 19/ 2021 dated 08" December 2021, General Circular No. 21/ 2021 dated 14" December 2021, followed by General Circular No. 02/2022 dated 05" May 2022, General Circular No. 10/2022 dated 28" December 2022 followed by General Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023 and other applicable circulars as may be issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars') read with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07" October 2023 and any other applicable circulars issued in this connection by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') to transact the businesses as set out in the AGM Notice.
- In compliance with the above circulars, an electronic copy of the AGM Notice along with the Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 will be sent to all the shareholders, whose names appear in the Register of Members/ Beneficial Owners maintained by the depositories as on 21th August 2024 and whose email addresses are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') or their respective Depository Participant(s) ('DPs'). Shareholders holding shares of the Company in dematerialized mode, are requested to register/update their e-mail addresses, mobile numbers and other KYC details with their respective Depositories through their DPs.

The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for the financial year

- 2023-24 will also be made available on the Company's website at https://samhi.co.in and the website of the stock exchanges i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com and also on the NSDL's website at www.evoting.nsdl.com. Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses
- set out in the AGM Notice through electronic voting system only. The instructions for joining the AGM through VC/ OAVM and the manner of participation in the remote e-voting or casting votes through e-voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company.
- The AGM Notice of the Company will be sent to all the shareholders in compliance with the appliable laws and above-mentioned circulars on their e-mail addresses

By the Order of the Board, For SAMHI Hotels Limited Sd/-

Place: Gurugram Date: 22.08.2024

Mr. Sanjay Jain Senior Director-Corporate Affairs, Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: F6137



### Manali Petrochemicals Limited Regd. Off: "SPIC House", 88, Mount Road, Guindy

Chennai - 600 032. TeleFax: 044 - 2235 1098 CIN: L24294TN1986PLC013087, Website: www.manalipetro.com E-mail: companysecretary@manalipetro.com

**NOTICE TO SHAREHOLDERS** ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING - REQUEST TO REGISTER E-MAIL ADDRESS TO RECEIVE ANNUAL REPORTS

Pursuant to the General Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with the other relevant circulars referred to therein, it is hereby informed that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 18th September 2024 at 2.00 pm (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the aforesaid Circulars. As mandated in the aforesaid Circulars read with SEBI's Circular dated 07th October 2023 on the subject, the Annual Report for the Financial Year 2023-24 together with the Notice of the AGM will be sent only by electronic means to the shareholders who have registered their e-mail ids with the Company or the Depository Participants as the case may be, unless a specific request has been made in writing for receiving the Physical copy. These will also be made available in the Websites of the Company and the Stock Exchanges viz.,

(A) For the attention of Members who are holding shares in physical form. who have not registered their e-mail ids and other particulars with the

Investors are requested to submit their requests online or through e-mails and as far as possible avoid handling of physical documents.

www.manalipetro.com and www.bseindia.com & www.nseindia.com.

- You may visit https://investors.cameoindia.com and follow the guidance for submission of the information online for registering the e-mail, mobile number and other details, etc. Options for submission of Form 15G/15H for non-deduction of
- TDS from dividend for the year 2023-24, subject to approval of Shareholders at the 38th AGM, payable within the prescribed time are also available in the above web-link, which may be used. Request for registration / change of the information shall be submitted in Form
- ISR-1 as prescribed by SEBI which is available in the website of the Company under the following link https://www.manalipetro.com/investor-servicerequests physical-shares-2/, to the RTA by sending an e-mail with the scanned copy of the Form and other required documents to kyc@cameoindia.com under the name of the Company (MPL).
- Alternatively, the aforesaid information may be sent by post or courier to the RTA viz., Cameo Corporate Services Limited, Unit : Manali Petrochemicals Limited, Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai - 600 002. Ph: 044-2846 0390 / 4002 0700. (B) Persons holding shares in demat mode may approach their Depository

to receive the Annual Reports and other communications by e-mail has been duly exercised in respect of such holdings. Detailed instructions for casting of votes through remote e-voting prior to the meeting and also for participating / speaking / voting at the meeting will be made

Participant (DP) for the above purpose. Also it may be ensured that the option

available in the Notice of the AGM. This Notice is further to earlier communications sent to Shareholders requesting to update their respective KYC with the Company/DP (as the case maybe).

This public notice is being published to facilitate the Members to register or change or update their contact details and other particulars, Members may kindly avail the opportunity and provide the information at the earliest so that the Company is able to send the notices and other information promptly. For any further clarifications, Members may contact the RTA as specified above.

> For Manali Petrochemicals Limited R. Swaminathan Company Secretary

Place: Chennai Shareholders are requested to promptly update their KYC viz., address, bank m.e.n.d.e.t.e. and other relevant details with the Company / RTA / Depository Participants (as the case may be) for receiving communication and claiming dividends.

financialexp.epapr.in

August 22, 2024.

New Delhi











प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंव

## गुजरात: कांग्रेस विधायकों ने किया बहिर्गमन

## सवाल पूछने की नहीं मिली थी इजाजत, एक दिन के लिए किए गए निलंबित

गांधीनगर. २२ अगस्त (भाषा)।

को सदन से बहिर्गमन करने के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 11 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया।

विपक्षी दल के ये विधायक संक्षिप्त नोटिस पर कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे लेकिन अध्यक्ष शंकर चौधरी ने उनकी मांग नामंजुर कर दी। तब इन कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताते हए

NOTICE Notice is hereby given that the certificates for 200 equity shares of face value of

Rs. 10/- each having certificate nos. 90084262, 90084263, 90084264,

90084265, 90084266, 90084267

90084268, 90084269 bearing Distinctive

Nos. 21697859-21697883, 21697884-21697908, 21697909-21697933

21697934-21697958. 27947859

27947883, 27947884-27947908 27947909-27947933, 27947934-

27947958 respectively of Escorts Kubota Limited under Folio No. ESC0101246

standing in the name of Mr. Rajeev

Saraswat have been lost or misplaced and

the undersigned have applied to the company to issue duplicate certificates for

the said shares. Any person who has any

claim in respect of the said shares should

write to our registrar, Kfin Technologies Pvt.

Ltd., Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Seri, Hyderabad-500032, Telangana, within one month from this date else the

company will proceed to issue duplicate

अल्टीमेट इन्वेस्टोफिन लिमिटेड से अल्टीमेट इन्वेस्टोफिन प्राइवेट लिमिटेड

में नाम परिवर्तन के मामले में इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि अल्टीमेंट इन्वेस्टोफिन प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन U65933DL1991PTC266069) कंपनी अधिनियम

1956 के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत

कार्यालय 804. निर्मल टॉवर, 26 बाराखंभा रोड.

कनॉट प्लेस नई दिल्ली – 110001 में स्थित है,

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आवश्यक

प्रस्ताव पारित कर दिया है और कंपनी (निगमन

नियम, 2014 के नियम 29 के अनुसार कंपनी

रजिस्टार से निगमन का नया प्रमाण पत्र प्राप्त कर

लिया है। इसके अलावा एक गैर-बैंकिंग वित्त

कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, इसने

आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक.

नई दिल्ली से 25 जुलाई, 2024 को नया सीओआर

नंबर बी-14.03316 प्राप्त कर लिया है, जो

अल्टीमेट इन्वेस्टोफिन लिमिटेड से

अल्टीमेट इन्वेस्टोफिन प्राइवेट लिमिटेड में

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नयमावली,

2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

आई काय होल्डिंग कम्पनी प्रा.लि. जिसका पंजीकृत

कार्यालय: 260, दुसरा तल, अशोका एन्क्लेव मैन,

सेक्टर-35, फरीदाबाद, हरियाणा-121003

के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि

"हरियाणा राज्य" से "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" में उसके

पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को

सक्षम बनाने के लिए 09 अगस्त, 2024 को आयोजित

असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि

के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत

यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र के पास

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 2 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत

प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकत

कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ

इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर

अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख

करते हए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, बी-2 विंग, 2रा तल,

पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-

110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकत डाक

पंजीकृत कार्यालय: 260, दूसरा तल, अशोका एन्क्लेव

स्थानः फरीदाबाद (निर्देशक) DIN: 00324141

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

क्रिम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

डिजीमाइंडस कैरियर सॉल्युशंस लिमिटेड

(CIN: U74990DL2021PLC381055)

जिसका पंजीकत कार्यालय: भारती क्रिसेंट, 1,

नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कंज, फेज-॥.

दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110070 में हैं, के मामले में

एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है,

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से व्हरियाणा राज्य में

स्थानांतरित करने के लिए 20 अगस्त 2024 की

आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष

प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल

कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में

शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपय पत्र जिसमें

चनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण

उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक

को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14)

दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल,

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकत डाक

हारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को

उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

भारती क्रिसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत क्ज,

डिजीमाइंडस कैरियर सॉल्युशंस लिमिटेड

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

हस्ता / -

पुनीत टंडन (निदेशक)

डीआईएन: 07464132

फेज-II, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110070

दिनांक : 22.08.2024

स्थान: नई दिल्ली

में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है ।

....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्तां

कृते एवं के लिये

अजय चावल

आई. काय होल्डिंग कम्पनी प्रा.लि

मैन, सेक्टर-35, फरीदाबाद, हरियाणा-121003

तिथि: 23.08.2024

आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

अल्टीमेट इन्वेस्टोफिन प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी की ओर से

हस्ता/-

निदेशक

नाम परिवर्तन को प्रमाणित करता है।

जानकारी पर ध्यान दें ।

दिनांक: 22.08.2024

स्थानः नई दिल्ली

**RAJEEV** 

**SARASWAT** 

certificates.

PLACE: Faridabad (HR)

DATE: 23.08.2024

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में नारेबाजी करने और अन्य ने 'राजकोट अग्निकांड के पीडितों को इंसाफ दो', 'मादक पदार्थ के खतरे पर रोक लगाओं', 'भूमाफिया पर शिकंजा कसों'

सदन से बहिर्गमन किया। उसके शीघ्र बाद और 'नवसारी में जलापूर्ति स्कैंडल' जैसे नारे वाली तिस्तयां दिखायीं। चावडा ने दावा किया गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष ने गुरुवार और तख्तियां लहराने को लेकर इन विधायकों कि पार्टी विधायकों ने मानसून सत्र के प्रारंभ को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। होने से पहले विधानसभा सिचवालय को विधानसभा में फिलहाल कांग्रेस के 12 संक्षिप्त नोटिस वाले 12 प्रश्न सौंपे थे लेकिन विधायक हैं लेकिन पार्टी विधायक जिग्नेश उनमें से किसी को चर्चा के लिए नहीं चुना तीन दिवसीय मानसून सत्र के दूसरे दिन मेवानी गुरुवार को अनुपस्थित थे। इससे पहले गया। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी दल से कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा कहा कि संक्षिप्त नोटिस वाले प्रश्नों का चयन संबंधित मंत्री की सहमति के बाद ही चर्चा के लिए किया जाता है लेकिन मंत्रियों को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

### **AIA ENGINEERING LIMITED**

Corporate Identification Number (CIN): L29259GJ1991PLC015182 Registered Office: 115, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad - 382415, Gujarat, India. Corporate Office: 11-12, Sigma Corporates, B/h. HOF Showroom, Off S. G. Highway, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, Ahmedabad – 380054, Gujarat, India.

Tel: 079-22901078 | Fax: 079-22901077 | Website: www.aiaengineering.com | E-mail: ric@aiaengineering.com Contact Person: Mr. S. N. Jetheliya, Company Secretary & Compliance Officer

### **NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS-BUYBACK OF EQUITY SHARES**

AIA Engineering Limited ("Company") has sent the Letter of Offer and Tender Form dated August 21, 2024 for Buyback of Equity Shares from all the Eligible Shareholders as on the Record date (Tuesday, August 20, 2024), through electronic means to those Eligible Shareholder(s) who have registered their e-mail ids with the Company/Depositories. Further, if the Company or the Registrar to the Buyback receives a request, along with the details as specified under paragraph 22.2 of the Letter of Offer, from any Eligible Shareholder for a physical copy of Letter of Offer/ Tender Form, the same shall be provided to the Eligible Shareholder. The Schedule of Buyback is as under:

	Activity	Day and Date
100	Date of Opening of the Buyback Offer Period	Monday, August 26, 2024
ш	,	Friday, August 30, 2024
	*Last Date and Time of Receipt of Completed Tender Forms and other specified documents by	Friday, August 30, 2024 by 5.00

the Registrar to the Buyback \* For terms and conditions of the Buyback and other details, please refer to the Letter of Offer.

For detailed schedule of activities, please refer the Letter of Offer. The details of Buyback Entitlement are as follows:

1				
I	Category of Eligible Shareholders	Ratio of Buyback (i.e. Buyback Entitlement)*		
ı	Reserved Category for Small Shareholders	1 Equity Shares out of every 4 Equity Shares held on the Record Date		
۱	General Category for all other Eligible Shareholders	1 Equity Shares out of every 111 Equity Shares held on the Record Date		
*For further information on ratio of Buyback Entitlement in each category, please refer paragraph 21.7 of the Letter of Offer.				

Eligible Shareholders can also check their entitlement on the website of the Registrar to the Buyback by following the steps, as mentioned below:

Click on https://linkintime.co.in/Offer/Default.aspx

Select the Name of the Company – "AIA Engineering Limited – Buyback 2024"

Select the holding type – "Demat" or "Physical" or "PAN" Based on the option selected above, enter your "DPID CLID" or "Folio Number" or "PAN"

Then click on Submit button and then click on View button

The entitlement will be provided in the pre-filled "FORM OF ACCEPTANCE - CUM ACKNOWLED GEMENT" In case you have not received the Letter of Offer and the Tender Form, the same is also available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com), the

Manager to the Buyback (www.vivro.net), the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in) and the Company at (www.aiaengineering.com). Capitalised terms used in this Notice and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the Letter of Offer.

Place: Ahmedabad Date: August 22, 2024

S N Jetheliya **Company Secretary and Compliance officer** 

For AIA Engineering Limited

# KRBLLimited

# केआरबीएल लिमिटेड

CIN: L01111DL1993PLC052845 पंजीकृत कार्यालयः 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली — 110006 फोन: 011-23968328, फैक्स: 011-23968327

कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-32, 5वीं और 6वीं मंजिल, सेक्टर 62, नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश-201301 फोन: 0120-4060300, फैक्स: 0120-4060398

ईमेल आईडी: investor@krblindia.com; वेबसाइट: www.krblrice.com 31वीं वार्षिक साधारण बैठक की स्वना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के साथ पठित एमसीए सामान्य परिपत्र 14/2020 दिनांक अप्रैल 08, 2020, 17/2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020, 20/2020 दिनांक गई 05, 2020 और इस संबंध में जारी अनुवर्ती परिपन्नों, नवीनतम 9/2023 दिनांक शितम्बर 25, 2023 (संयुक्त रूप से "एमसीए परिपन्न" के रूप में संदर्भित) और सेंबी परिपत्र सं. सेंबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक मई 12, 2020, सेंबी / एचओ / सीएफडी / सीएमढी२ / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक जनवरी 15, 2021, सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमढी२ / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक मई 13, 2022, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी - पीओडी - 2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक जनवरी 05, 2023 और नवीनतम सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक अक्टूबर 07, 2023 (संयुक्त रूप से "सेबी परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना केआरबीएल लिमिटेड की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024 को दोप. 12:00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। एजीएम का मानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली-110006 माना जाएगा।

उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी ने विलीय वर्ष ("वि.व.") 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के लिंक के साथ 31वीं एजीएम की सूचना का लिंक उन सभी सदस्यों को ईमेल कर दिया है जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("बीपी")/अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड- रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("बारटीए")/ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') / सेंट्रल डिपॉजिटरी (सर्विसेज) इंडिया लिमिटेड ('सीडीएसएल') के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.krblrice.com और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

सूचना या वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की मौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जाएगी जो विशेष रूप से अपने फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए investor@krblindia.com हमें इसके लिए अनुरोध करते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित सूचीयन विनियम के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवीय मानक-2 के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) का उपयोग करके 31वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट ढालने की सविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली की सविधा हेत् सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं। निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वॉटिंग या एजीएम के दौरान ई-वॉटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए सदस्यों की पात्रता सनिश्चित

करने की तिथि शुक्रवार, सितंबर 06, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") निर्धारित की है। एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, सितंबर 06, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर / डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं केवल वे ही वोट देने का हकदार होगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे लेकिन पहले से ही बोट किए गए प्रस्तावों पर दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से वोट नहीं दिया है वे एजीएम के दौरान वोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग सविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई—वोटिंग अवधि प्रारंभ	मंगलवार, सितम्बर 10, 2024, प्रातः 8:00 बजे (आईएसटी) से
रिमोट ई-वोटिंग अवधि समाप्त	बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024, सायं 5:00 बजे (आईएसटी) तक

इसके बाद सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉक्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट ढालने के बाद सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ विथि अर्थात् शुक्रवार, सितंबर 06, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूजी में धारित उनके शेयरों के अनुपात में होगा। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना मेजने के बाद अर्थात अयस्त 22, 2024 को सदस्य बनता है वह 31वीं एजीएम की सचना और वोटिंग हेत् यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने तथा वार्षिक रिपोर्ट की साँट कॉपी प्राप्त करने के लिए कंपनी को investor@krblindia.com पर या आरटीए को rta@alankit.com पर लिख सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह मौजूदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोटिंग कर सकता है।

कंपनी / बिपोंजिटरी प्रतिभागियों के साथ ई-मेल पता पंजीकरण और ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करनाः सदस्यों से अनुरोध है कि वे डीमेंट होल्डिंग के संबंध में अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिमागियों ("डीपी") के साथ या भौतिक होल्डिंग के संबंध में कंपनी / आरटीए के साथ विधिवत भरा हुआ और शेयरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 investor@krblindia.com या rta@alankit.com पर जमा करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पहले ही पंजीकृत कर लिया है उनसे अनुरोध है कि वे भविष्य में अपने ईमेल पते पर सूचना / दस्तावेज / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने में सक्षम होने के लिए इसे अपने डिपॉजिटरी / आरटीए के साथ वैध रखें।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के मध्यम से एजीएम में भाग लेने और शामिल होने तथा ईमेल पते के पंजीकरण पर व्यापक दिशानिर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध हैं जिन्हें वेबसाइट www.krbirice.com से डाउनलोड किया

एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

मई 20, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लामांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, सितंबर 06, 2024 ('रिकॉर्ड विथि') तय की गई है। एजीएम में मंजूरी मिलने पर लामांश का मुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लाग् कान्नों के तहत निर्घारित समय-सीमा के अनुसार किया जाएगा। ई-वोटिंग का परिणाम

निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की जांच करने के उद्देश्य से श्री दीपक क्करेजा (सदस्यता संख्या एफसीएस-4140), पार्टनर, डीएमके एसोसिएटस, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में और सुश्री मोनिका कोहली (सदस्यता संख्या एफसीएस-5480) पार्टनर, डीएमके एसोसिएट्स को वैकल्पिक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का परिणाम आम बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के मीतर घोषित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.krbirice.com, सीडीएसएल की वेबसाइट और स्टॉक

सदस्यगण www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वॉटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या किसी भी प्रश्न के लिए helpdesk.evoling@cdsindia.com पर लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 210 99 11 पर संपर्क कर सकते हैं।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभृतियां घारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरघारकों के लिए सहायता डेस्क नीचे बनाई गई है

NDSL evoting@nsdl.com CDSL helpdesk.evoting@cdslindia.com

स्थानः नोएडा, उत्तर प्रदेश

दिनांकः अगस्त 23, 2024

एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर सचीबद्ध हैं, की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

बोर्ड के वादेशानुसार कृते केंबारबीएल लिमिटेड इस्ता/-पीयुष असीजा पंजाब नेशनल बैंक



मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद, ई-मेलः cs8228@pnb.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

जनसता

जबकि अघोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभृति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / बंधककर्ता / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सुचना / प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ताओं 🖊 गारंटरों उक्त राशि का मुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदहारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित

सम्पत्ति का कब्जा. उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखत दिनांकों को** कर्जदारों /बंधककर्ता/ गारंटरों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। **कर्जदारों /बंधककर्ता/ गारंटरों** को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई मी लेन-देन पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार वास्ते बकाया राशि और मविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। यदि उधारकर्ता / गारंटर प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/ बंधककर्ताओं/गारंटरों का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (धारा 13(2) के तहत नोटिस में उल्लेख के अनुसार)	कब्जा सूचना की तारीख
1	(शाखाः चंदर नगर, गाजियाबाद सोल आईडी— 144300)	साम्यिक बंधक आईपी: भूमि क्षेत्रफल 0.4988 हेक्टेयर,	30-05-2024	22-08-2024
	मैसर्स रेशू कॉपॉरेट सर्विसेज प्रा. लि., (उधारकर्ता) (खाता सं. 1443009300469485) पताः डी—654, सरस्वती विहार, दिल्ली—110034 औट डी—5. डी—ब्लॉक, सेक्टर—09, विजय नगर, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201009, औट खसरा सं. 107, मि जिंदल एन्वलेव, फेज—1, गांव— मोहिउदीनपुर, गांजियाबाद— 201001 और खसरा सं. 1265, गांव— नूर नगर, लोनी, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201003, और मकान नं. 10, ब्लॉक—सी, सेक्टर—1, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 इसके निदेशक / गांरंटर श्री सौरम कुमार पुत्र श्री सतीश ल्यांगी (मेसर्स रेशू कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कृष्णा एसेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक / गांरंटर) निवासी डी—5, डी—ब्लॉक, सेक्टर—09, विजय नगर, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश— 201002 और ई—201, सेक्टर—09, विजय नगर, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश— 201002 और ई—201, सेक्टर—09, विजय नगर, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश— 201001, श्री विक्रम सिंह चौहान पुत्र श्री जय मगवान चौहान (मेसर्स रेशू कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कृष्णा एसेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक / गांरंटर) निवासी डी—23, डी—ब्लॉक, सेक्टर—09, विजय नगर, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश— 201009, और बी—48ए, नंदनी कुंज, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश— 201003, श्री अशबीर सिंह पुत्र श्री सुखबीर सिंह, (मेसर्स कृष्णा एसेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक / गांरंटर) निवासी मकान नं. 108, कोट गांव, पुराने आर्य नगर के पास, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश— 201001 और मेसर्स कृष्णा एसेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक श्री सौरम	खसरा नं. 1284, गांव नूर नगर, परगना– लोनी, तहसील और जिला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश मेसर्स कृष्णा एसेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिगिटेड के स्वामित्व में है। उपयोगकर्ता इसके निदेशक औ सीरम कुमार पुत्र श्री सतीश त्यागी के माध्यम से, बुक नं. 1, जिला नं. 7476, पेज नं. 383 से 520, सीरियल नं. 975 तारीख 17/01/2013 को सब रजिस्ट्रार– 11, गाजियाबाद, यूपी द्वारा पंजीकृत	स भावव्य का ब्याज, लागत एव खच इत्याद	



कुमार पुत्र श्री सतीश त्यागी के माध्यम से पंजीकृत कार्यालयः 391,

हवेली हैदर कुली, चांदनी चौक, दिल्ली- 110006, और: ग्राम नूर नगर,

3— डाइमेशन, खसरा सं. 1264, एनएच—58, राज नगर एक्सटेशन,

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश— 201003, और: एम—6, द्वितीय तल, आदित्य

कॉर्प हब, आरडीसी राज नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001

दिनांक 22-08-2024, स्थान : गाजियाबाद

### (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF

Registered Office: Upper Doab Sugar Mills, Shamli-247 776 (U.P.) Corporate Office: 8th Floor, Express Trade Towers, Plot No.15-16, Sector 16 A, Noida-201301 (U.P.) Corporate Identification Number (CIN): L51909UP1933PLC146675, Tel No.: 01398-250082 | Website: www.sirshadilal.com

Open offer for acquisition of up to 13,65,000 (Thirteen Lakh Sixty Five Thousand) ("Offer Shares") fully paid-up equity shares of face value of ₹10 (Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares"), representing 26% (twenty six per cent) of the Voting Share Capital of Sir Shadi Lal Enterprises Limited ("Target Company") from the Shareholders of the Target Company, by Triveni Engineering and Industries Limited ("Acquirer") pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI (SAST) Regulations" and reference to a particular "Regulation" shall mean the particular regulation of the SEBI (SAST) Regulations) (the "Offer" or "Open Offer").

This Post Offer Advertisement is being issued by Ambit Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of Acquirer pursuant to Regulation 18 (12) of the SEBI (SAST) Regulations in respect of the Open Offer made by the Acquirer. The Detailed Public Statement with respect to the offer that was published in 'Financial Express' (English- all editions), 'Jansatta' (Hindi- all editions), "Harit Shakti" (Hindi- Shamli edition) and 'Navshakti' (Marathi- Mumbai Edition) on February 06, 2024 ("DPS"). The First Corrigendum to the DPS dated February 10, 2024, the Second Corrigendum to the DPS dated March 11, 2024 and the Third Corrigendum to the DPS dated June 22, 2024 were published in the same newspapers where the DPS was published. The pre-offer advertisement cum corrigendum to the DPS dated August 1, 2024 was published in the same newspaper where the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Post-Offer Advertisement shall have the meaning as assigned to such terms in the Public Announcement, DPS, and/ or the Corrigenda.

S. No.	Particulars	Proposed in Offer Document Actuals	
7.	Details of Acquisition:		
6.	Date of Payment of Consideration	August 20, 2024 (Tuesday)	
	b. Date of Closure of the offer	August 16, 2024 (Friday)	
	a. Date of Opening of the offer	August 2, 2024 (Friday)	
5.	Offer Details		
4.	Name of the Registrar	KFin Technologies Limited	
3.	Name of the Manager to the Offer	Ambit Private Limited	
2.	Name of the Acquirer and PACs	Triveni Engineering and Industries Limited	
1.	Name of the Target Company	Sir Shadi Lal Enterprises Limited	

7.	Details of Acquisition:					
S. No.	Particulars	Proposed in O	ffer Document		Actuals	
7.1	Offer Price	₹262.15		₹262.15		
7.2	Aggregate number of shares tendered	13,65	,000		5	
7.3	Aggregate number of shares accepted	13,65	5,000		5	
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share)	₹35,78,34,750			₹1,310.75	
7.5	Shareholding of the Acquirers before Agreements/Public Announcement (No. & %)	Nil			Nil	
	Shares Acquired by way of Agreements			50		
7.6	Number	13,35,136		iii	13,35,136 <sup>\$</sup>	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	25.4	3%	Ü	25.43% <sup>\$</sup>	
	Shares Acquired by way of Open Offer					
7.7	Number	13,65,000		5		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	26.00%		0.0001%		
	Shares acquired after Detailed Public Statement					
	Number of shares acquired	13,35,136		a. 13,35,136 Equity Shares representing 25.43% of the share		
7.8	Price of the shares acquired	₹262.15		acquired on March 11, 2	024 for ₹262.15 per Equity Share <sup>s</sup>	
	• % of the shares acquired	25.43%			s representing 36.34% of the share capita 24 for ₹235 per Equity Share#	
	Post offer shareholding of Acquirer			1		
7.9	Number	27,00,136			32,42,884^	
1	% of Fully Diluted Equity Share Capital*	51.43%*			61.77%^	
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer	
7.10	Number	20,07,116	6,42,116°	20,07,116	20,07,116@	
1	% of Fully Diluted Equity Share Capital*	38.23%	12.23%	38.23%	38.23%	

\$Pursuant to completion of the Underlying Transaction on March 11, 2024, the Acquirer acquired 13,35,136 (Thirteen Lakhs Thirty Five Thousand One Hundred and Thirty Six) Equity Shares representing 25.43% (Twenty-Five point Four Three per cent) of the Voting Share Capital of the Target Company from Mr. Vivek Viswanathan and Ms. Radhika Viswanathan Hoon.

\*On June 20, 2024, the Acquirer vide a share purchase agreement completed the acquisition of 19,07,743 (Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred Forty Three) Equity Shares from Mr. Rajat Lal, Mr. Rahul Lal and Ms. Poonam Lal. Pursuant to the said transaction, and change in management of the Target Company, the Acquirer has also become the promoter of the Target Company along with the existing promoter/promoter group of the Target Company. Further, since the aggregate shareholding of the existing Promoters has been reduced to NIL, the existing Promoters of the Target Company shall be re-classified as public in accordance with

^The Post Offer shareholding of the Acquirer is the aggregate of 13,35,136 (Thirteen Lakhs Thirty Five Thousand One Hundred and Thirty Six) Equity Shares representing 25.43% (Twenty-Five point Four Three per cent) Voting Share Capital of the Target Company acquired from Mr. Vivek Viswanathan and Ms. Radhika Viswanathan Hoon, 19,07,743 (Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred Forty Three) Equity Shares representing 36.34% (Thirty-Six point Three Four percent) Voting Share Capital of the Target Company acquired from Mr. Rajat Lal, Ms. Poonam Lal and Mr. Rahul Lal, and 5 (Five) Equity Shares tendered by the public Shareholder in the Open Offer.

\* Assuming full acceptance under the Open Offer.

@Ms. Pooja Lal (member of the Promoter Group) sold her shareholding i.e. 5 (five) Equity Shares in the open market. The Acquirer and its directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also accepts responsibility for the obligations

of the Acquirer laid down under the SEBI (SAST) Regulations.

A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (http://www.sebi.gov.in).

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
AMBIT Acumen at work	<b>▲</b> KFINTECH
Ambit Private Limited	KFin Technologies Limited
Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg,	Selenium, Tower B, Plot No-31 and 32, Financial District,
Lower Parel, Mumbai - 400 013	Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi-500 032
Maharashtra, India	Telangana, India
<b>Telephone:</b> + 91 22 6623 3030	Tel.: +91 40 6716 2222, Fax: +91 40 2343 1551
Email: ts.openoffer@ambit.co	E-mail: ssel.openoffer@kfintech.com, Website: www.kfintech.com
Contact Person: Nikhil Bhiwapurkar/Siddhesh Deshmukh	Investor Grievance Id: einward.ris@kfintech.com
Website: www.ambit.co	Contact Person: Mr. M. Murali Krishna
SEBI Registration No.: INM000010585	SEBI Registration No.: INR000000221

Place: Noida, Uttar Pradesh Date: August 22, 2024

Adfactors

www.readwhere.com

कंपनी सचिव

यूपी/हरियाणा शामली, शुक्रवार 23 अगस्त 2024 दैनिक हरित शक्ति E-mail: haritshakti2@gmail.com

## कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों का सामूहिक कार्य बहिष्कार,पांचों तहसील में दिखा असर

लखनऊ कलेक्ट्रेट के कर्मचारी का होकर लौटना पड़ा। 22 सूत्रीय मांगों सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन गुस्सा फूट गया। लखनऊ के में लखनऊ कार्यालय जिला अधि के सिद्धांत के आधार पर कलेक्ट्रेट कलेक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ाकारी के स्थान पर मिनीध्जनपद कर्मचारी कर्मियों को भी सचिवालय के द्वारा 1 दिन का सामूहिक अवकाश सिचवालय रखा जाए। कलेक्ट्रेट के बराबर वेतन भत्ता दिया जाए। सिंह, अध्यक्ष द्वारा की गयी। कार्यक्रम पर रहकर धरना–प्रदर्शन किया गया। लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब उपार्जित अवकाश 300 दिन संचित को संबोधित करते हुए मंत्री निशील इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों को तहसीलदार के 10: पदों पर पदगति करने की बाध्यता को समाप्त करते किशोर श्रीवास्तव ने कहा कि शीघ्र ही पुरा करने को लेकर नारेबाजी भी प्रदान की जाए। कनिष्ठ सहायक की। वही शाम को जिला अधिकारी का परिणाम परिवर्तित करते हुए

लखनऊ को 22 सूत्रीयों मांगों को वरिष्ठ सहायक वेतन की विसंगतियों से लागू की जाए। सामूहिक बीमा की

लेखा तैयार करने की व्यवस्था दोबारा

लखनऊ, / एजेंसी। लंबे समय लेकर ज्ञापन भी सौंपा। कलेक्ट्रेट को जल्द से जल्द दूर किया धनराशि 10 लख रुपए किया जाए हजरतगंज, लखनऊ पर एक दिवसीय से 22 सूत्रीय मांगों को लेकर मिल कर्मचारी के प्रदर्शन की वजह से जाए।नवीन पेंशन योजना को समाप्त एक महीने का वेतन अतिरिक्त दिया धरना, प्रदर्शन का कार्यक्रम भी करेंगे। रहे आश्वासन के बाद गुरुवार को काम करने पहुंची जनता को निराश करके पुरानी पेंशन बहाली की जाए। जाए। इसके अलावा कोरोना काल के मंच का संचालन अशोक कुमार 16वां का विशेष महंगाई भत्ता भी श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम कर्मचारियों को प्रदान किया जाए। ६ में प्रमुख तौर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ारना कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेन्द्र हुए। पूर्व की तरीका अवशेष अवकाश हमारी 22 सूत्रीय माँगें पूरी नहीं की तिवारी, रवीन्द्र नाथ सिन्हा, शैलेश जाती है तो प्रदेश के समस्त कलेक्ट्रेट कर्मचारी 18 सितंबर को गांधी प्रतिमा,

शरद सक्सेना, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रवीश पाण्डे, संयुक्त मंत्री अशोक श्रीवास्तव, सां एवं क्रीड़ा मंत्री राज कुमार के अलावा विश्वन जी श्रीवास्तव, दीपक साहू, शिखा आर्य, सरस्वती निगम व

### एनबीएफजीआर में मनाया गया पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह

लखनऊ / एजेंसी। पार्थेनियम जिसे गाजरघास या कांग्रेस घास के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में प्रचलित सबसे आक्रामक खरपतवारों में से एक है, जो मानव और पशु स्वास्थ्य को खतरे में डालने के साथ-साथ पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। पार्थेनियम के पौधे के संपर्क में आने पर, इसमें पाया जाने वाला पार्थेनिन नामक एक विषाक्त पदार्थ मनुष्यों और जानवरों में डर्मेटाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन समस्याओं का कारण बनता है। पशुधन में भी दुधारू पशुओं का चारा पार्थेनियम के पत्तों से दूषित हो जाए तो उन्हें कड़वा दूध रोग हो जाता है। भारत में, पार्थेनियम कृषि या ग्रामीण और शहरी आबादी, रेलवेलाइन और सड़कों के किनारे, स्कुलों, कृषि और अन्य संस्थान परिसरों में एक गंभीर समस्या बन गया है। भाकुअनूप-खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर इस समस्या को देखते हुए हर साल एक राष्ट्रव्यापी गाजरघास जागरूकता सप्ताह मनाये जाने का आह्वान करता है।

## बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में मौन जुलूस

उरई / जालौन / एजे सी। बांग्लादेश में हिंदओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जालौन में गुरुवार को हिंदू संगठनों ने मौन जुलूस निकाला। जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग मौजूद रहे। यह जुलुस उरई के टाउन हॉल के मैदान से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया। जहां सिटी मजिस्ट्रेट के माध यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते

जा रहे हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाने की मांग की गई। साथ ही उन्हें शरण देने के लिए कहा।

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सूर्यकुमार शुक्ला के नेतृत्व में हिंदू रक्षा समिति कानपुर प्रांत के पदाधि ाकारी आचार्य तेजस, प्रशांत तिवारी, लखन लाल, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव सहित अलग–अलग हिंदू

हुए बांग्लादेश में प्रताड़ित किया संगठनों के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अल्पसंख्यकों पर हो अत्याचारों के विरोध में उरई के टाउन हाल में एकत्रित हए और मौन जुलुस निकाला, यह मौन जुलूस उरई के शहीद भगत सिंह चौराहे से अंबेडकर चौराहा, जिला परिषद होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। जहां सभी हिंदू संगठनों के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजते हुए हिंदू संगठनों के लोगों ने मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अल्पसंख्यक व उनके पवित्र पूजा स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उत्पीड़न शोषण व मानवीय अत्याचार से समस्त बांग्लादेशी हिंदू व अल्पसंख्यक व्यक्तित्व पीड़ित हैं। बांग्लादेश में अराजकता तथा निष्प्रभावी कानून व्यवस्था के कारण अतिवादी जिहादी तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंदुओं का आर्थिक तथा शारीरिक शोषण किया जा रहा

> हिंदुओं को लक्ष्य मानकर उनके धार्मिक तथा व्यावसायिक स्थलों को लूटा व तोड़ फोड़ की जा रही है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश में प्राय होती थी, परंतु ध्वस्त सरकारी व्यवस्था के चलते ऐसी घटनाओं में वीभत्स रूप ले लिया है. कट्टरपंथी जिहादी द्वारा बहन बेटियों तथा छोटे बच्चों पर भी किया जा रहे कृत्यों के चित्र आदि देखकर संपूर्ण देश का हिंदू आक्रोशित है, इसीलिए हिंदू रक्षक समिति एवं अन्य हिंदू संगठन बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं तथा अल्पसंख्यकों के परिवार व उनके व्यावसायिक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तथा संरक्षण की मांग करती है। साथ ही बांग्लादेश से आए भारत आए हिंदू शरणार्थी को स्रक्षित स्थान दिया जाए।

## म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ अलग करने के लिए बहुत साहस की जरुरत है : शारिब-तोशी

संगीतकार जोड़ी शारिब–तोशी अपने नए ट्रैक श्सल्ले अल्लाश के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कलाकारों को बाजार में आगे बढ़ने और लोगों द्वारा पसंद किए जाने से लेकर कुछ अलग करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। सल्ले अल्ला एक सुफी गीत है और इसमें पाकिस्तानी कलाकार

हाशिम अहमदानी भी हैं। इस गीत को 30 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। शारिब-तोशी ने कहा, भीड़ से अलग कुछ करने की हिम्मत, खासकर संगीत उद्योग में, बहुत साहस की जरूरत होती है। हम हमेशा से सूफी शैली को वर्तमान पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाना चाहते थे, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए खुद पर विश्वास की आवश्यकता होती है। जब हमने निर्माता हाशिम और संगीतकार एलेक्स से यह विचार सुना, तो हम तुरंत तैयार हो गए। गीत में ईश्वरीय मिलन और प्रेम के गहरे भाव को दर्शाया गया है। इसके बोल जहीर जर्फ द्वारा लिखे गए हैं। गीत में सांसारिक चिंताओं से परे, ईश्वर से जुड़ने की आत्मा की खोज को व्यक्त किया गया है। शारिब–तोशी के साथ इस सहयोग का विचार सबसे पहले संगीतकार और संगीत निर्माता एलेक्स शाहबाज का था, जो लाइव रिकॉर्ड किए गए वाद्ययंत्रों के साथ एक मौलिक कृति बनाना चाहते थे। जोड़ी



ने कहा, यह सहयोग न केवल दर्शकों का मनोरंजन करता है, बल्कि सूफी संगीत के माध्यम से देश भर के लोगों को एकजूट करने का एक शानदार अवसर भी प्रदान करता है। हम एक साथ मिलकर काम करने और संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक विभाजन को पाटने के लिए उत्साहित हैं। बॉलीवुड कलाकारों के साथ अपने पहले सहयोग के बारे में बात करते हुए, हाशिम और एलेक्स ने कहा, यह ट्रैक इस तथ्य का प्रमाण है कि संगीत सभी बाधाओं को पार करता है। भाइयों के साथ काम करना मेरे लिए एक अविश्वसनीय अनुभव और एक सपना सच होने जैसा था। उनकी विनम्रता उनके संगीत में झलकती है, और हम अपने दर्शकों को इस एकल के जादू को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हम इस सहयोग के माध्यम से नई यादें बनाने की उम्मीद करते हैं।

### तुषार ने कपूर किया खुलासा, गोलमाल में मेरा किरदार एक एक्सपेरिमेंट था

'गोलमाल' में अपने सबसे प्रतिष्ठित किरदार श्लकीश के बारे में बात करते हुए अभिनेता तुषार कपूर ने कहा कि शुरुआत में यह किरदार एक प्रयोग था, और वह खुद तथा निर्माता यह जानने के लिए उत्सुक थे कि लोग इसे कैसे लेंगे। तुषार ने आईएएनएस को बताया, यह किरदार पिछले कई साल से लोगों के बीच खासकर के नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय है। यह एक ऐसा किरदार है जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। भगवान की कृपा से



उस किरदार को स्वीकार कर लिया गया। यह शुरू में एक प्रयोग था और हम यह जानने के लिए उत्सुक थे कि लोग इसे कैसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन इसे स्वीकार कर लिया गया। मुझे लगता है कि कभी-कभी ये पात्र पुराने हो जाते हैं लेकिन जैसे-जैसे नई पीढ़ी आती है उन्हें भी यह चरित्र पसंद आ जाता है। आगे कहा, मुझे लगता है कि इससे किरदार जीवंत और बहुत ताजा रहता है और आज भी दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। यह गोलमाल ब्रांड और मेरे लिए काम करता है। मैं बेहद ही भाग्यशाली हूं कि बच्चे मेरी भूमिका को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, गोलमाल फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। इसमें अजय देवगन,

अरशद वारसी और शरमन जोशी के साथ रिमी सेन और परेश रावल भी थे। इसे एक आधुनिक कल्ट फिल्म माना जाता है। रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित गोलमाल फन अनलिमिटेड॰ मिहिर भूटा के गुजराती नाटक ध्अफलातुन॰ पर आधारित है, जो हर्ष शिवशरण के मराठी नाटक ष्यर घरष् पर आधारित था। तुषार पिछले दो दशकों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और उन्हें लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा, इस अर्थ में बहुत कुछ बाकी है कि मैंने वास्तव में एक हॉरर फिल्म या डांस फिल्म नहीं की है, हमेशा कछ नया होता है जो सामने आता है और आपको लगता है कि 'यह करना बाकी है' हमेशा कुछ नया करने को होता है।

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF

Corporate Office: 8th Floor, Express Trade Towers, Plot No.15-16, Sector 16 A, Noida-201301 (U.P.) Corporate Identification Number (CIN): L51909UP1933PLC146675, Tel No.: 01398-250082 | Website: www.sirshadilal.com

Open offer for acquisition of up to 13,65,000 (Thirteen Lakh Sixty Five Thousand) ("Offer Shares") fully paid-up equity shares of face value of ₹10 (Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares"), representing 26% (twenty six per cent) of the Voting Share Capital of Sir Shadi Lal Enterprises Limited ("Target Company") from the Shareholders of the Target Company, by Triveni Engineering and Industries Limited ("Acquirer") pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI (SAST) Regulations" and reference to a particular "Regulation" shall mean the particular regulation of the SEBI (SAST) Regulations) (the

This Post Offer Advertisement is being issued by Ambit Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of Acquirer pursuant to Regulation 18 (12) of the SEBI (SAST) Regulations in respect of the Open Offer made by the Acquirer. The Detailed Public Statement with respect to the offer that was published in 'Financial Express' (English- all editions), 'Jansatta' (Hindi- all editions), "Harit Shakti" (Hindi- Shamli edition) and 'Navshakti' (Marathi- Mumbai Edition) on February 06, 2024 ("DPS"). The First Corrigendum to the DPS dated February 10, 2024, the Second Corrigendum to the DPS dated March 11, 2024 and the Third Corrigendum to the DPS dated June 22, 2024 were published in the same newspapers where the DPS was published. The pre-offer advertisement cum corrigendum to the DPS dated August 1, 2024 was published in the same newspaper where the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Post-Offer Advertisement shall have the meaning as assigned to such terms in the Public Announcement, DPS, and/ or the Corrigenda.

1.	Name of the Target Company	Sir Shadi Lal Enter	rprises Limited		
2.	Name of the Acquirer and PACs	Triveni Engineering	g and Industries Limited		
3.	Name of the Manager to the Offer	Ambit Private Limit	ed		
4.	Name of the Registrar	KFin Technologies	Limited		
5.	Offer Details				
	a. Date of Opening of the offer	August 2, 2024 (Fr	riday)		
	b. Date of Closure of the offer	August 16, 2024 (F	Friday)		
6.	Date of Payment of Consideration	August 20, 2024 (7	Tuesday)		
7.	Details of Acquisition:		1-9		
No.	Particulars	Proposed in Offer Document	Actuals		
7.1	Offer Price	₹262.15	₹262.15		
7.2	Aggregate number of shares tendered	13,65,000	5		
7.3	Aggregate number of shares accepted	13,65,000	5		
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share)	₹35,78,34,750	₹1,310.75		
7.5	Shareholding of the Acquirers before Agreements/Public Announcement (No. & %)	Nil	Nil		
	Shares Acquired by way of Agreements				
7.6	Number	13,35,136	13,35,136 <sup>s</sup>		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	25.43%	25.43%s		
	Shares Acquired by way of Open Offer				
7.7	Number	13,65,000	5		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	26.00%	0.0001%		
	Shares acquired after Detailed Public Statement				
	Number of shares acquired	13,35,136	a. 13,35,136 Equity Shares representing 25.43% of the share capital		

	Shares Acquired by way of Open Offer						
7.7	Number	13,65	5,000			5	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	26.0	00%		)	0.0001%	
	Shares acquired after Detailed Public Statement						
	Number of shares acquired	13,35,136		a. 13,35,136 Equity Shares representing 25.43% of the share capit			
7.8	Price of the shares acquired	₹26	2.15	acquired o	n March 11, 202	4 for ₹262.15 per Equity Share <sup>\$</sup>	
	% of the shares acquired	25.43%		b. 19,07,743 Equity Shares representing 36.34% of the share cap acquired on June 20, 2024 for ₹235 per Equity Share*			
	Post offer shareholding of Acquirer						
7.9	Number	27,00	0,136		3	2,42,884^	
	% of Fully Diluted Equity Share Capital*	51.43%*		61.77%^			
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-0	Offer	Post-Offer	
.10	Number	20,07,116	6,42,116	20,07	7,116	20,07,116@	

SPursuant to completion of the Underlying Transaction on March 11, 2024, the Acquirer acquired 13,35,136 (Thirteen Lakhs Thirty Five Thousand One Hundred and Thirty Six) Equity Shares representing 25.43% (Twenty-Five point Four Three per cent) of the Voting Share Capital of the Target Company from Mr. Vivek Viswanathan and Ms. Radhika Viswanathan Hoon.

12.23%

\*On June 20, 2024, the Acquirer vide a share purchase agreement completed the acquisition of 19,07,743 (Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred Forty Three) Equity Shares from Mr. Rajat Lal, Mr. Rahul Lal and Ms. Poonam Lal. Pursuant to the said transaction, and change in management of the Target Company, the Acquirer has also become the promoter of the Target Company along with the existing promoter/promoter group of the Target Company. Further, since the aggregate shareholding of the existing Promoters has been reduced to NIL, the existing Promoters of the Target Company shall be re-classified as public in accordance with

^The Post Offer shareholding of the Acquirer is the aggregate of 13,35,136 (Thirteen Lakhs Thirty Five Thousand One Hundred and Thirty Six) Equity Shares representing 25.43% (Twenty-Five point Four Three per cent) Voting Share Capital of the Target Company acquired from Mr. Vivek Viswanathan and Ms. Radhika Viswanathan Hoon, 19,07,743 (Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred Forty Three) Equity Shares representing 36.34% (Thirty-Six point Three Four percent) Voting Share Capital of the Target Company acquired from Mr. Rajat Lal, Ms. Poonam Lal and Mr. Rahul Lal, and 5 (Five) Equity Shares tendered by the public Shareholder in the Open Offer.

\* Assuming full acceptance under the Open Offer.

% of Fully Diluted Equity Share Capital\*

®Ms. Pooja Lal (member of the Promoter Group) sold her shareholding i.e. 5 (five) Equity Shares in the open market.

38.23%

The Acquirer and its directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also accepts responsibility for the obligations of the Acquirer laid down under the SEBI (SAST) Regulations.

A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (http://www.sebi.gov.in).

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRED BY THE MANAGER TO THE OPEN OFFER

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER		
AMBIT Acumen at work	KFINTECH		
Ambit Private Limited Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Maharashtra, India Telephone: + 91 22 6623 3030 Email: ts.openoffer@ambit.co Contact Person: Nikhil Bhiwapurkar/Siddhesh Deshmukh Website: www.ambit.co SEBI Registration No.: INM000010585	KFin Technologies Limited Selenium, Tower B, Plot No-31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi-500 032 Telangana, India Tel.: +91 40 6716 2222, Fax: +91 40 2343 1551 E-mail: ssel.openoffer@kfintech.com, Website: www.kfintech.com Investor Grievance Id: einward.ris@kfintech.com Contact Person: Mr. M. Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221		

Place: Noida, Uttar Pradesh Date: August 22, 2024

तमन ना भाटिया ने फैंस के साथ अपनी पसंदीदा सब्जी की ज्ञलक शेयर की

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अपने लंच की एक झलक देते हुए बताया कि उन्हें श्मेंडीश कितनी पसंद है। इंस्टाग्राम पर तमन्ना के 2.61 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इस प्लेटफॉर्म के स्टोरीज सेक्शन में उन्होंने एक खूबसूरत सेल्फी पोस्ट की, जिसमें उन्हें सफेद रंग की ड्रेस में कार में बैठे हुए देखा जा सकता है। वह खिड़की से बाहर देखते हुए पोज दे रही हैं।तस्वीर का कैप्शन है लंच में क्या है दिवा ने एक और तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनका लंच बॉक्स दिख रहा है। इसमें भिंडी क्विनोआ, दाल और नींबू शामिल हैं। इसका कैप्शन है सभी भिंडी प्रेमियों के लिए। हाल ही में तमन्ना ने कॉमेडी हॉरर फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात पर अपने डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। अमर कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियो के बैनर तले दिनेश विजन और ज्योति देशपांडे ने किया है। 2018 की फिल्म स्त्री के सीक्वल में श्रद्धा कपूर और राजकुमार मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही इसमें पंकज त्रिपाठी, अभिषेक और अपारशक्ति खुराना भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। काम की बात करें तो तमन्ना को पिछली बार सुंदर सी. द्वारा निर्देशित तमिल कॉमेडी हॉरर फिल्म अरनमनई 4 में देखा गया था। इसमें तमन्ना के साथ सुंदर, राशि खन्ना, रामचंद्र राजू, संतोष प्रताप, कोवई सरला, योगी बाबू, वी.टी.वी. गणेश और दिल्ली गणेश हैं।

वह निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियो, एम्मे एंटरटेनमेंट तथा जेए एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित एक्शन ड्रामा श्वेदाश में भी एक कैमियो भूमिका में नजर आई थीं। फिल्म में जॉन अब्राहम, शरवरी और अभिषेक बनर्जी हैं। तमन्ना के पास अशोक तेजा द्वारा निर्देशित और संपत नंदी द्वारा निर्मित तेलुगु सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ओडेला 2 पाइपलाइन में है। फिल्म में हेबाह पटेल, वशिष्ठ



Adfactors

एन. सिम्हा भी मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही इसमें युवा, नागा महेश, वामसी, गगन विहारी, सुरेंदर रेड्डी, भूपाल और पुजा रेड्डी भी हैं। वह डेयरिंग पार्टनर्स में भी काम कर रही हैं।



### आयएसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नों. कार्यालय: मेकर भवन क्र. २, ५ वा मजला, न्यु मरिन लाईन्स, मुंबई-४०० ०२० द्.: ०२२-६६३३५३०१/०२

### सीआयएन: यु२८९९१एमएच१९६६पीएलसी०१२१७४०

आयएसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या ५८ व्या एजीएमबाबत माहीती यादारे सचना देण्यात येते की. आयएसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''कंपनी'') ची ५८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०२४ रोजी स. ११.०० वा. (भाप्रवे) एजीएम निमंत्रणासाठी वितरित करण्यात येत असलेल्या एजीएमच्या सचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स ("व्हीसी/ ओएव्हीएम'') सविधेमार्फत होईल.

निगम व्यवहार मंत्रालयाने (''एमसीए'') जारी केलेली जनरल सर्क्युलर्स म्हणजेच अनुक्रमे ०८ एप्रिल, २०२० दिनांकित सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, १३ एप्रिल, २०२० दिनांकित सर्क्युलर क्र. १७/२०२०, ०५ मे, २०२० दिनांकित सर्क्युलर क्र. २०/२०२०, १३ जानेवारी, २०२१ दिनांकित सर्क्युलर क्र. ०२/२०२१, ०८ डिसेंबर, २०२१ दिनांकित सर्क्युलर क्र. १९/२०२१, १४ डिसेंबर, २०२१ दिनांकित सर्क्युलर क्र. २१/२०२१, ०५ मे, २०२२ दिनांकित सर्क्युलर क्र. २/२०२२ आणि २८ डिसेंबर, २०२२ दिनांकित सर्क्युलर क्र. १०/२०२२ आणि ११/२०२२ (एकत्रित उल्लेख ''एमसीए सर्क्युलर्स'') आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या संबंधित तरतुदी व त्या अंतर्गत बनवलेले नियम यांच्या अनुपालनात ५८ वी एजीएम आयोजित केली जाईल. उपरोक्त सर्क्युलर्स नुसार, सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनी/आरटीए किंवा संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटसकडे ज्यांचे ई मेल ॲडेसेस नोंदवलेले असतील त्या सभासदांना फक्त इलेक्टॉनिक माध्यमातून पाठवली जाईल. एजीएममध्ये सामील होण्यासाठीचे निर्देश आणि रिमोट इलेक्टॉनिक व्होटींग किंवा एजीएममध्ये ई-व्होटींग सिस्टीम मार्फत मत देण्याची पध्दत एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे. व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सभेस हजर राहणाऱ्या सभासदांना अधिनियमाच्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्या पूर्ततेसाठी विचारात घेतले जाईल.

प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमॅट स्वरूपात शेअर्स धारण करणारे सभासद ज्यांनी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट ("आरटीए") डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत ते कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, अँड्रॉईट कॉपॉरेट सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांना info@adroitcorporate.com येथे एक ईमेल पाठवून ५८ व्या एजीएमची सूचना आणि आ.व. २०२३-२४ साठीचा वार्षिक अहवाल मिळवू शकतात आणि / किंवा व्हीसी /ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राह शकतात. कृपया वर दिलेल्या ईमेल आयडीजवर प्रत्यक्ष धारकांसाठी भागधारकांचे नाव, फोलीओ क्र. आणि शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत/डिमॅट धारकांसाठी डिमॅट अकाऊंट क्र., क्लायंट मास्टर किंवा एकत्रित लेखा विवरणाची प्रत, पॅन आणि आधार कार्डच्या स्व-स्वाक्षांकित स्कॅन्ड प्रतींसह सर्व आवश्यक तपशील पुरवून वरील दस्तावेज जोडावेत.

कंपनीकड्न सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर त्यांची मते देण्यासाठी तसेच एजीएममध्ये ई-व्होटींग सिस्टीम मार्फत मत देण्याची सुविधा तिच्या सर्व सभासदांना ई-व्होटींग सुविधा पुरवली जाईल. रिमोट ई-व्होटींग/एजीएममध्ये ई-व्होटींग मार्फत मते देण्यासाठीची तपशिलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत पुरवली जाईल.

५८ व्या एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२४ सुयोग्य वेळी भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल ॲड्रेसेसवर प्रयोज्य कायद्यानुसार पाठवली जाईल.

एमसीए सर्क्यलर्सच्या अनुपालनांत सर्व सभासदांच्या माहीती आणि फायद्यासाठी ही जाहीरात

आयएसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेडसाठी अनिकेत शाह

डीआयएन: ००५०९८९५

ठिकाण: मुंबई दिनांक : २५/८/२०२४

जारी करण्यात येत आहे.

### त्रिमूर्ती कॉर्न्स ॲग्रो फुडस् प्रायव्हेट लिमिटेड - समापनातील

नोंदणीकृत कार्या: गट क्र. ९८७, पेरणे फाटा, तालुका हवेली, जि. पुणे, पुणे, महाराष्ट्र-४१२ २१६ <u>ई-लिलाव</u> इन्सॉल्वन्सी अँड बॅकरप्टसी कोड, २०१६ अंतर्गत एक चालू संस्था म्हणून कॉर्पोरेट कर्जदारांची विक्री आणि अलिप्त तत्त्वावर काही मत्तेची विक्री ई-लिलावाची तारीख आणि वेळ : २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी स. ११,०० ते द. ०३,०० (प्रत्येकी ५ मिनिटांच्या अमर्याद एक्स्टेन्शनसह)

विक्री सूचना ज्यांल्वन्सी अँड बँकरप्टसी कोड, २०१६ आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियमान्वये नामदार एनसीएलटी मुंबई खंडपीठान नियुक्त केलेल्या परिसमापकांनी केलेल्या समापन संपत्तीचा भाग बनणाऱ्या एक चालू संस्थेची विक्री आणि अलिप्त तत्त्वाव काही मत्तेची विक्री मे. त्रिमूर्ती कॉर्न्स ॲग्रो फुडस प्रा. लि.- समापनातील (कॉर्पोरेट कर्जदार)च्या विक्रीसाठी याद्वारे

सूचना दण्यात यत.		
मत्ता	राखीव किंमत	इअर रक्कम
	(रु. लाखात)	(रु. लाखात)
संच १. चालू संस्था सह तारण आणि वित्तीय मने समाविष्टीत सर्व मनेसह कॉर्पोरेट कर्जदाराची विक्री (कॅश/बॅंक बॅलन्स आणि फिक्स डिपॉझिट वगळून). (वेळ स. ११.०० ते ट्. ०१.३०)	रु. ४४९	रु. ४४.९
संच २. गट क्र. ९८७, २३३, २३४ आणि २३५ पेरणे फाटा, ह्वेली, पुणे येथे स्थित संपूर्ण प्लांट आणि मशीनरी (वेळ दु. ०१.३० ते दु. २.००)	रु. २४४	रु. २४.४
संच ३. गट क्र. ९८७,२३३,२३४ आणि २३५ पेरणे फाटा, हठोली, पुणे येथे स्थित झ्मारत रचनेची विक्री (वेळ दु. २.०० ते दु. २.३०)	रु. ३४	रु. ३.४
संच ४. गट क्र. २३३ पेरणे फाटा, हवेली, पुणे येथे स्थित जड वाहने (वेळ दु. २.३० ते दु. ३.००)	रु. १४	रु. १.४

फार महत्वाचे

याद्वारे सर्व इच्छक पक्षांना सचित केले जाते की संच-१ साठी कोणतीही यशस्वी बोली साध्य झाल्यास. त्याटारे यशस्व बोलीदाराची घोषणा केल्यास, उर्वरित लॉट (संच -२, संच-३ आणि संच-४) आपोआप रह होतील . विक्री https://right2vote.in/eauction येथे उपलब्ध ''ई-लिलाव प्रक्रिया माहिती दस्तावेजांत'' विहि

केलेल्या अटी आणि शर्तीच्या व खालील शर्तीच्या अधीन होईल. संच १ च्या बोली लावणाऱ्या बोलिदाराला इतर संच २, ३ आणि ४ पेक्षा प्राधान्य दिले जाईल. संच १ ची यशस्वी

बोली झाल्यास, संच -२, संच -३ आणि संच -४ या इतर संचचा लिलाव रद्द केला जाईल ३. हे स्पष्ट करण्यात येते की, ह्या निमंत्रणाने संभाव्य बोलिदारांना आमंत्रित करणे अभिप्रेत आहे आणि विक्रीस परिणाम स्वरुप देण्यासाठी परिसमापक किंवा कंपनीच्या बाजूने कोणत्याही प्रकारचे बंधनकारक दायित्व करत नाही. मे. त्रिमूर्ती कॉर्न्स ॲग्रो फुडस् प्रायव्हेट लिमिटेडच्या परिसमापकांनी कोणतेही कारण न देता आणि कोणतेही दायित्व न घेता ई लिलाव प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर प्रक्रियेच्या अटी रहीत/परित्यागित/रद्द/विस्तारीत करण्याचे आणि/किंव कोणतेही संभाव्य बोलीदार/बोली/प्रस्ताव यांना फेटाळण्याचे किंवा अपात्र ठरवण्याचे अधिकार राखन ठेवले आहेत. ४. ई-लिलाव ''जसे आहे जेथे आहे'', ''जसे आहे जे आहे'', ''जे काही आहे तेथे आहे'' आणि ''कोणाचेही सहाय्य न घेता तत्त्वाने" मान्यताप्राप्त सेवा पुरवठादार मे. राईट २ व्होट इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड मार्फत

https://right2vote.in/eauction/ येथे आयोजित केला जाईल. यशस्वी बोलीदारांनी प्रदान करण्याची वेळेची मुदत आयबीबीआय (लिक्किडेशन प्रोसेस) रेग्युलेशन्स, २०१६ च्य रिशिष्टाच्या परिच्छेद १ च्या खंड (१२) मध्ये सांगितल्या प्रमाणे ९० दिवस असेल. तथापि, हितसंबंधियांची सङ्घागार समिती मध्ये हितसंबंधीयांच्या पूर्व मंजरीचे ९० दिवसांपढे जास्तीत जास्त ३० दिवसांची वाढीव मदत हितसंबंधीय विचारात घेऊ शकतात.

६. प्रक्रिया दस्तावेजामध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे पात्रता दस्तावेज आणि बोली दस्तावेज सादर करण्यासाठी अंतिग तारीख आहे ७ सप्टेंबर, २०२४. निरीक्षणाची तारीख आहे ९ सप्टेंबर, २०२४ ते १६ सप्टेंबर, २०२४ आणि सादः करावयाची इसारा अनामत रकम परिसमापकांनी देवलेल्या कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या खात्यात २१ सप्टेंबर, २०२४ रोर्ज किंवा त्यापर्वी पोहोचली पाहिजे.

७. मे . राईट २ व्होट इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडची वेबसाईट म्हणजेच (Https://right2vote.in/eauction/ मध्ये वेळापत्रकातील कोणतेही बदल आणि/किंवा अटी व शर्तीसह ''ई-लिलाव प्रक्रिया माहिती दस्तावेज'' मधील सुधारणा अधिसूचित केल्या जातील

. कोणत्याही चौकशीसाठी **श्री. अनिल काशी डोलियाशी** संपर्क साधावा. मेल आयडी iquidation.trimurti@gmail.com.

अनिल काशी डोलिया परिसमापर

Adfactors

ठिकाण : नाशिक

त्रिमूर्ती कॉर्न्स ॲग्रो फुडस् प्रायव्हेट लिमिटेड – समापनातील आयबीबीआय नों. क्र. : आयबीबीआय/आयपीए-००१/आयपी-पी०२३२७/२०२०-२१/१३४८२ दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०२४बी-९०६, पार्क साईड १, रहेजा इस्टेट, कुलुपवाडी, बोरिवली - पूर्व, मुंबई-४०० ०६६



POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF

### SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED

Registered Office: Upper Doab Sugar Mills, Shamli-247 776 (U.P.) Corporate Office: 8th Floor, Express Trade Towers, Plot No.15-16, Sector 16 A, Noida-201301 (U.P.) Corporate Identification Number (CIN): L51909UP1933PLC146675, Tel No.: 01398-250082 | Website: www.sirshadilal.com

Open offer for acquisition of up to 13,65,000 (Thirteen Lakh Sixty Five Thousand) ("Offer Shares") fully paid-up equity shares of face value of ₹10 (Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares"), representing 26% (twenty six per cent) of the Voting Share Capital of Sir Shadi Lal Enterprises Limited ("Target Company") from the Shareholders of the Target Company, by Triveni Engineering and Industries Limited ("Acquirer") pursuant to and in compliance with Regulations 3(1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (the "SEBI (SAST) Regulations" and reference to a particular "Regulation" shall mean the particular regulation of the SEBI (SAST) Regulations) (the "Offer" or "Open Offer").

This Post Offer Advertisement is being issued by Ambit Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of Acquirer pursuant to Regulation 18 (12) of the SEBI (SAST) Regulations in respect of the Open Offer made by the Acquirer. The Detailed Public Statement with respect to the offer that was published in 'Financial Express' (English- all editions), 'Jansatta' (Hindi- all editions), "Harit Shakti" (Hindi- Shamli edition) and 'Navshakti' (Marathi- Mumbai Edition) on February 06, 2024 ("DPS"). The First Corrigendum to the DPS dated February 10, 2024, the Second Corrigendum to the DPS dated March 11, 2024 and the Third Corrigendum to the DPS dated June 22, 2024 were published in the same newspapers where the DPS was published. The pre-offer advertisement cum corrigendum to the DPS dated August 1, 2024 was published in the same newspaper where the DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this Post-Offer Advertisement shall have the meaning as assigned to such terms in the Public Announcement, DPS, and/

or the (	Corrigenda.	
1.	Name of the Target Company	Sir Shadi Lal Enterprises Limited
2.	Name of the Acquirer and PACs	Triveni Engineering and Industries Limited
3.	Name of the Manager to the Offer	Ambit Private Limited
4.	Name of the Registrar	KFin Technologies Limited
5.	Offer Details	
	a. Date of Opening of the offer	August 2, 2024 (Friday)
	b. Date of Closure of the offer	August 16, 2024 (Friday)
6.	Date of Payment of Consideration	August 20, 2024 (Tuesday)

7.	Details of Acquisition:						
S. No.	Particulars	Proposed in O	ffer Document		Actuals		
7.1	Offer Price	13,35,136 25.43% 13,65,000 26.00%			₹262.15		
7.2	Aggregate number of shares tendered	13,65	5,000	5			
7.3	Aggregate number of shares accepted	13,65	5,000	5			
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share)	₹35,78,34,750		₹1,310.75			
7.5	Shareholding of the Acquirers before Agreements/Public Announcement (No. & %)	Nil		Nil			
	Shares Acquired by way of Agreements						
7.6	Number	13,35,136		13,35,136 <sup>s</sup>			
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	25.43%		25.43% <sup>s</sup>			
	Shares Acquired by way of Open Offer						
7.7	Number	13,65,000		5			
	% of Fully Diluted Equity Share Capital	26.00%		0.0001%			
	Shares acquired after Detailed Public Statement						
	Number of shares acquired	13,35,136		a. 13,35,136 Equity Shares representing 25.43% of the share capita			
7.8	Price of the shares acquired	₹262.15		acquired on March 11, 2024 for ₹262.15 per Equity Share <sup>s</sup>			
	• % of the shares acquired	25.43%		b. 19,07,743 Equity Shares representing 36.34% of the share capit acquired on June 20, 2024 for ₹235 per Equity Share#			
	Post offer shareholding of Acquirer						
7.9	Number	27,00,136		32,42,884^			
	% of Fully Diluted Equity Share Capital*	51.43%*		61.77%^			
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer		
7.10	Number	20,07,116	6,42,116°	20,07,116	20,07,116®		
	% of Fully Diluted Equity Share Capital*	38.23%	12.23%*	38.23%	38.23%		

SPursuant to completion of the Underlying Transaction on March 11, 2024, the Acquirer acquired 13,35,136 (Thirteen Lakhs Thirty Five Thousand One Hundred and Thirty Six) Equity Shares representing 25.43% (Twenty-Five point Four Three per cent) of the Voting Share Capital of the Target Company from Mr. Vivek Viswanathan and Ms. Radhika Viswanathan Hoon.

\*On June 20, 2024, the Acquirer vide a share purchase agreement completed the acquisition of 19,07,743 (Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred Forty Three) Equity Shares from Mr. Rajat Lal, Mr. Rahul Lal and Ms. Poonam Lal. Pursuant to the said transaction, and change in management of the Target Company, the Acquirer has also become the promoter of the Target Company along with the existing promoter/promoter group of the Target Company. Further, since the aggregate shareholding of the existing Promoters has been reduced to NIL, the existing Promoters of the Target Company shall be re-classified as public in accordance with applicable laws.

^The Post Offer shareholding of the Acquirer is the aggregate of 13,35,136 (Thirteen Lakhs Thirty Five Thousand One Hundred and Thirty Six) Equity Shares representing 25.43% (Twenty-Five point Four Three per cent) Voting Share Capital of the Target Company acquired from Mr. Vivek Viswanathan and Ms. Radhika Viswanathan Hoon, 19,07,743 (Nineteen Lakhs Seven Thousand Seven Hundred Forty Three) Equity Shares representing 36.34% (Thirty-Six point Three Four percent) Voting Share Capital of the Target Company acquired from Mr. Rajat Lal, Ms. Poonam Lal and Mr. Rahul Lal, and 5 (Five) Equity Shares tendered by the public Shareholder in the Open Offer.

\* Assuming full acceptance under the Open Offer.

®Ms. Pooja Lal (member of the Promoter Group) sold her shareholding i.e. 5 (five) Equity Shares in the open market.

The Acquirer and its directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also accepts responsibility for the obligations

of the Acquirer laid down under the SEBI (SAST) Regulations.

A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (http://www.sebi.gov.in). ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER BY THE MANAGER TO THE OPEN OFFER

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
AMBIT Acumen at work	KFINTECH
Ambit Private Limited	KFin Technologies Limited
Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg,	Selenium, Tower B, Plot No-31 and 32, Financial District,
Lower Parel, Mumbai - 400 013	Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi-500 032
Maharashtra, India	Telangana, India
<b>Telephone:</b> + 91 22 6623 3030	Tel.: +91 40 6716 2222, Fax: +91 40 2343 1551
Email: ts.openoffer@ambit.co	E-mail: ssel.openoffer@kfintech.com, Website: www.kfintech.com
Contact Person: Nikhil Bhiwapurkar/Siddhesh Deshmukh	Investor Grievance Id: einward.ris@kfintech.com
Website: www.ambit.co	Contact Person: Mr. M. Murali Krishna
SEBI Registration No.: INM000010585	SEBI Registration No.: INR000000221

Place: Noida, Uttar Pradesh Date: August 22, 2024



Bandhan रीजनल ऑफिसः नेताजी मार्ग, मिठाकली सिक्स रस्त्यांजवळ, एलिसब्रीज, अहमदाबाद-०६. फोनः +91-79-26421671-7 एलिसब्रीज, अहमदाबाद-06. फोन: +91-79-26421671-75

### कर्जदारास मागणी सूचना

नेम्नलिखित खाते हे एन.पी.ए.मध्ये रुपांतरीत झाले आहे आणि बंधन बँक लिमिटेडद्वारे पुढील कर्जदारांना, सेक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंट्रेस्ट ॲक्ट अधिनियम) २००२ च्या कलम १३ (२) अंतर्गत, जारी करण्यात आलेली मागणी नोटीस ही न बजावता परत आली होती. प्रकाशनातून तुम्हाला सर्वांना आणि सर्वसाधारणपणे जनतेकरिता ही नोटीस जारी करण्यात येत आहे.

		0		
कर्जदाराचे नाव, हमीदार आणि	मालमत्तेचे वर्णन (सुरक्षित मालमत्तेचे)	मागणी नोटिसीचा	मागणी सूचनेच्या	नोटिस चिकटवण्याचा
कर्जाचा खाते क्र.		दिनांक / NPA दिनांक	दिनांकेला थिकत रक्कम	दिनांक
श्री.अंकुश भानुदास ढोबळे	311.90 चौ.मीटर सर्व्हें क्र. 64 के, प्लॉट नं. 4, घर क्र. 430/4, दैठण रोड, गेवराई,	18.07.2024/	ਲ.3,91,093.55	14.08.2024
सौ.मिना अंकुश ढोबळे	जिल्हा-बीड, महाराष्ट्र 431127 येथे स्थित असलेल्या स्थावर मालमत्तेचे सर्व खंड व भूभाग	04.03.2024		
	आहेत आणि ही मालमत्ता खालीलप्रमाणे बद्ध आह			
श्री.युनुस हुसेन सय्यद	उत्तर: गंगवाल यांनी विकलेली जमीन (निर्मला आव्हाड), पूर्व: प्लॉट क्र. 3, पश्चिम: प्लॉट			
20006110000705	क्रमांक 5, दक्षिण: 20 फूट रस्ता			
श्री.राजकुमार रामराव कागदे	सर्व्हें क्र.65/अ, घर क्रमांक 1-5-342 जुने 1-5-489 नवीन, सन्मित्र कॉलनी, श्री राम	18.07.2024/	ফ.4,26,989.83	14.08.2024
सौ.जमुनाबाई रामराव कागदे	नगर, नगर रोड, बीड, जिल्हा-बीड, महाराष्ट्र-431122 येथे स्थित असलेल्या स्थावर	05.04.2023		
	मालमत्तेचे सर्व खंड व भूभाग आहेत आणि ही मालमत्ता खालीलप्रमाणे बद्ध आह			
श्री.बळीराम लक्ष्मण गायकवाड	उत्तरः रस्ता, पूर्वः श्री गाँयके यांचा प्लॉट, पश्चिम : श्री मस्के यांचा प्लॉट, दक्षिणः खुली जागा			
श्री.सुधीर सुमंतराव नंद				
20006110000016				
As A				\

थील तारखेपासून 60 दिवसांच्या आत व्याजासह, तुमच्या नावासमोर उल्लेख करण्यात आलेल्या बँकेच्या देय रकमेची परतफेड करण्यासाठी या नोटिशीद्वारे तुमच्याकडे मागणी करण्यात येत आहे, सदरची पूर्तता करण्य असमर्थ ठरण्याच्या बाबतीत सरफैसी अधिनियमाच्या कलम 13 (4) अंतर्गत बँक पढील कार्यवाही करेल. उपलब्ध वेळेच्या मृदतीत कलम 13 च्या उप कलम (8) च्या तरत्डीनुसार सुरक्षित मालमत्तेचे विमोचन करण्याकरिता कर्जदारांचे लक्ष वेघण्यात येत आहे.

स्थळ: बीड अधिकत अधिकारी बंधन बँक लिमिटेड

Bank of India

तारीख: 23/08/2024

नाशिक झोनल ऑफिस: प्लॉट क्र. जी १, त्रंबकेश्वर रोड, सातपूर इंडस्ट्रियल एरिया, सातपूर, नाशिक-४२२००७, महाराष्ट्र

२५.०९.२०२४ रोजी स. ११.०० ते सायं. ०५.०० (भाप्रवे) दरम्यान बँकेकडे प्रभारित जंगम आणि स्थावर मिळकतीचा ई-लिलाव आणि ३० दिवसांची विक्री सूचना

सिक्यरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेटस ऑण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ सहवाचता सिक्यरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुत्स. २००२ च्या नियम ६(२) आणि ९(१) अन्वये जंगम आणि स्थावर मत्तेच्या विक्रीकरिता ई-लिलाव विक्री सचना

सर्वसामान्य जनता आणि विशेषतः खालील कर्जदार आणि हमीदारांना याद्वारे सूचना देण्यात येते की, खालील वर्णिलेल्या जंगम आणि स्थावर मिळकती या तारण धनकोंकडे गहाण /प्रभारित आहेत. ज्यांचा सांकेतिक/प्रत्यक्ष कब्जा बँक ऑफ इंडिया (तारण धनको) च्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे, त्या खालील नमुद कर्जदार आणि हमीदार यांच्याकडून तारण धनकोंना थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी ''जे आहे जेथे आहे'', ''जे आहे जमें आहे '' आणि ''जे काही आहे तेथे आहे'' तत्त्वाने विकण्यात येणार आहेत.

đ.	शाखेचे नाव आणि कर्जटार/	मिळकर्तींचे संक्षिप्त वर्णन					
	हमीदारांचे नाव आणि पत्ता आणि थकबाकी रक्कम						
_	भारता : भितानी उत्पान	गुरु गणीन	<u> </u>				
٠.	खाते : मे. काका रेंट ए कार	वाहन तपरालि रेनॉल्ट लॉजी डीजीआय	0.93				
	प्रोप्रायटर: नितीन तुकाराम गानगुर्डे	एमएच १५ एफही४९८३					
		नोंद दिनांकः ०५.०२.२०१८					
	822000	वासस क्रमाक: एम्ड्रेजएसआरबाडब्ल्युडएवर्च्च०५०५ इंजिन क्रमांक: के९केएफ८३०ई०४८९६६					
		जप्तीची सूचनेची तारीखः १६,१०.२०२३ कब्जाची तारीखः ०८.११.२०२३ कब्जाचा प्रकारः प्रत्यक्ष					
		• इअर रक्कम जी खाते क्र. / आयएफएससी कोड इ. मध्ये जमा करायची आहे: बँक ऑफ इंडिया, शिवाजी उद्यान शाखा, खाते क्र. 080690200000033, आयएफएससी :	कच्जाचा प्रकार: प्रत्यक्ष शिवानी उद्याग राह्मा, खाते क्र. 08069020000033, आयएफएससी :  १ ०२५३२-२५५७४३१७ तिल खालील नमूद प्लान्ट आणि मित्रती.  १ ३ केडक्ल्युएस, ऑपरेशन मोड ऑटोमॅटिक मटेरिअल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रकार मेन, प्रांवर ५ एचपी, ऑपरेशन मोड ऑटोमॅटिक, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, धी त्यात्र ५ केडक्ल्युएस, मटेरिअल ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेसलेस स्टील ऑपोटिंग  कच्जाचा प्रकार: सांकेतिक  १, नारिक मेन, प्रांवर ५ एचपी, ऑपरेशन मोड ऑटोमॅटिक, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, धी त्यात्र ५ केडक्ल्युएस, मटेरिअल ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेसलेस स्टील ऑपोटिंग  कच्जाचा प्रकार: सांकेतिक  १, नारिक मेन, प्रांवर भीटी कनेक्शन, धी फेज, मोटर पॉवर ५ एचपी, मटेरिअल ऑफ कच्जाचा प्रकार: प्रत्यक्ष  इया, नाशिक मेन, खाते क्र. 081890200000033, आयएफएससी :  -२५०४०७३  कच्जाचा प्रकार: प्रत्यक्ष  इया, सटाना शाखा, खाते क्र. 081890200000033, आयएफएससी :  -१५-२१३५५३  -१५-२१३५५३  -१५-२१३५५३  -१५-२१३३५३  -१५-२१३३५३  -१५-२१३३५३  -१५-१५४४०				
		BKID000806					
_	णाखा - जाणिक गेज	• प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा ईमेल आयडी / संपर्क क्र.: <u>ShivajiUdyan.Pune@bankofindia.co.in</u> ०२५३२-२५५७४३१७ मे. गुरुकृपा अँग्रो इंडस्ट्रीज, गट क्र १५, एअस्पोर्ट रोड, जौळके, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक येथील खालील नमृद प्लान्ट आणि मशिनरी.	2 10				
	खाते : मे. गुरुकुपा अँग्रो इंडस्ट्रीज	न. पुरुक्षप अग्रा इक्ट्राचा, पट क्र. १५, एकप्पाट राज, जाळक, तालुका विकास, जिल्हा नाराक पद्मारा चारा पर्याच कारा बेसन प्लान्ट मिशनरी– कॅपॅसीटी २५० ते ३०० किग्रॅ/तास, मोटर पॉक्स ५ एचपी, पॉक्स कंसम्पशन ३ केडब्ल्युएच, ऑपरेशन मोड ऑटोमॅटिक मटेरिअल ऑफ कंस्ट्क्शन	0.6				
. जावा : शिवानी उपान वाते : से जाका देंद कहा जोपाल जोपाल : कियानी उपान वाते : से जाका देंद कहा जोपाल : कियानी वह व्रवास मान्याई प्रकार अपान कर १९, लंकीर सोमायरी, अगोर कर , १९, लंकीर सोमायरी, अगोर कर , १९, लंकीर सोमायरी, अगोर कर , १९ लंकीर सोमायरा, अगोर कर , १९ लंकीर सेमायरा वात्र	(कॉन्टॅक्ट) माईल्ड स्टील, युजेज/ऑप्लिकेशन कमर्शिअल, इलेक्ट्रिसीटी कनेक्शन थ्री फेज, स्टोन साईझ २४ इंच						
		<ul> <li>इअर रक्कम जी खाते क्र. / आयएफएससी कोड इ. मध्ये जमा करायची आहे: बँक ऑफ इंडिया, नाशिक मेन,</li> </ul>					
		खाने क्र. 08039020000033, आयएफएससी : BKID0000803					
		• प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा ईमेल आयडी/ संपर्क क्र.: <u>Nasik.Pune@bankofindia.co.in</u> ०२५३-२५०४०७३					
		मे. गुरुकृपा अँग्रो इंडस्ट्रीज, गट क्र १५, एअस्पोर्ट रोड, जौळके, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक येथील खालील नमूद प्लान्ट आणि मशिनरी.	<u>ب. د</u>				
		टर्मरिक प्लान्ट मशिनरी- कॅपॅसीटी १०० किय्रॅ/तास, टाईप ऑफ मशिन ब्लोअर पुल्व्हेरिझर, मोटर पॉवर ५ एचपी, ऑपरेशन मोड ऑटोमॅटिक, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, श्री	0.4				
		फेज, युजेज/ॲप्लिकेशन इंडस्ट्रीअल, मटेरिअल ऑफ कंस्ट्रक्शन (कॉन्टॅक्ट) एमएस, पॉवर कंसम्पशन ५ केडब्ल्युएच, मटेरिअल ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेनलेस स्टील ऑपरेटिंग					
	जौळके, तालुका दिंडोरी, जिल्हा						
	नाशिक	● इअर रक्कम जी खाते क्र. / आयएफएससी कोड इ. मध्ये जमा करायची आहे: बँक ऑफ इंडिया, नाशिक मेन,					
		खाते क्र. 080390200000033, आयएफएससी : BKID0000803					
		And fire and					
		मे. गुरुकृपा अँग्रो इंडस्ट्रीज, गट क्र १५, एअरपोर्ट रोड, जौळके, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक येथील खालील नमूद प्लान्ट आणि मशिनरी.	<u>ξ. ?</u>				
		स्पाईसेस प्लान्ट मशिनरी- टाईप ऑफ मशिन एअर क्लासिफायर मील, ऑपरेशन मोड ऑटोमॅटिक, इलेक्ट्रिसीटी कनेक्शन, श्री फेज, मोटर पॉवर ५ एचपी, मटेरिअल ऑफ	0.8				
	पत्ता: गट क्र.१५, एअरपोर्ट रोड,						
		• इअर रक्कम जी खाते क्र. / आयएफएससी कोड इ. मध्ये जमा करायची आहे: बँक ऑफ इंडिया, नाशिक मेन, खाते क्र. 080390200000033, आयएफएससी :					
	नाशिक						
		● प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा ईमेल आयडी / संपर्क क्र.: <u>Nasik.Pune@bankofindia.co.in</u> ०२५३ – २५०४०७३					
			33.				
			3.3				
	२. श्री. साईनाथ जगन्नाथ पवार						
		• इअर रक्कम जी खाते क्र./ आयएफएससी कोड इ. मध्ये जमा करायची आहे: बँक ऑफ इंडिया, सटाना शाखा, खाते क्र. 08189020000033, आयएफएससी :					
		● प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा ईमेल आयडी / संपर्क क्र.: <u>Satana.Pune@bankofindia.co.in</u> ०२५५५–२२६३५३					
		वाहन तपशील	33.0				
	* 1 1 1 1 1		3.3				
		चेसिस क्रमांकः एमबी१एच३एलएचडी६एनआरपीडी८९६२					
	4						
		• इअर रक्कम जी खाते क्र./ आयएफएससी कोड इ. मध्ये जमा करायची आहे: बँक ऑफ इंडिया, सटाना शाखा, खाते क्र. 08189020000033, आयएफएससी :					
		● प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा ईमेल आयडी / संपर्क क्र.: <u>Satana.Pune@bankofindia.co.in</u> ०२५५५–२२६३५३					
_	WIET - 112171						
			3.3				
	भागीदर:	नोंदणी क्र. एमएच ४१ एयु २३२३					
	३. श्री. प्रविण नारायण मेधाने						
	पत्ताः चैतन्य हॉस्पिटलजवळ, देवळा, जिम्रीची सूचनेची तारीखः १९.०६.२०२४ कब्जाची तारीखः १४.०८.२०२४ कब्जाचा प्रकारः प्रत्यक्ष						
	तालुका दवळा जिल्हा नाशिक	• इअर रक्कम जी खाते क्र./ आयएफएससी कोड इ. मध्ये जमा करायची आहे: बँक ऑफ इंडिया, सटाना शाखा, खाते क्र. 081890200000033, आयएफएससी :					
_		● प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा ईमेल आयडी / संपर्क क्र.: <u>Satana.Pune@bankofindia.co.in</u> ०२५५५−२२६३५३					
		नोंदणी क्र. एमएच १७ बीवाय ६०७८					
	3						
	ज्ञाहमप् <b>म</b> ार						
		्रा चित्र । प्राप्त कार्य जमा करायची आहे: बँक ऑफ इंडिया, शिखी खाते क. 066790200000033, आयएफएससी :					
		BKID0000667					
		● प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचा ईमेल आयडी / संपर्क क्र.: <u>Shirdi.Pune@bankofindia.co.in</u> ०२४२३–२५७३७०					
			4.48				
	शाखा : छत्रपती संभाजीनगर	वाहन तपशील	_				
	खाते : श्री. कैलास कचरु दळवी (मे. कैलास टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स)	टारा व्हेन्चर ईएक्स ६+१ बीएस।॥ नोंदणी क्र. एमएच २० डीएफ०३८९	_				
	खाते : श्री. कैलास कचरु दळवी (मे. कैलास टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स) पत्ता: सवित्रीबाई फुले नगर,	टाटा व्हेन्चर ईएक्स ६+१ बीएस।॥ नोंदणी क्र. एमएच २० डीएफ०३८९ नोंद दिनांक: २३-०२-२०१५	_				
	खाते: श्री. कैलास कचर दळवी (मे. कैलास टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स) पत्ता: सवित्रीबाई फुले नगर, वडगाव कोलाटी, वाळुंज,	टाटा व्हेन्चर ईएक्स ६+१ बीएस।॥ नोंदणी क्र. एमएच २० डीएफ०३८९ नोंद दिनांक: २३-०२-२०१५ चेसिस क्रमांक: एमएटी४८३६०२ईबायएन१५४६१	_				
	खाते : श्री. कैलास कचरु दळवी (मे. कैलास टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स) पत्ता: सवित्रीबाई फुले नगर,	टाटा व्हेन्चर ईएक्स ६+१ बीएस।॥ नोंदणी क्र. एमएच २० डीएफ०३८९ नोंद दिनांक: २३-०२-२०१५ चेसिस क्रमांक: एमएटी४८३६०२ईवायएन१५४६१ इंजिन क्रमांक: ४७५आयडीटी१८एलव्हीवायएसबी८३९४	_				
	खाते: श्री. कैलास कचर दळवी (मे. कैलास टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स) पत्ता: सवित्रीबाई फुले नगर, वडगाव कोलाटी, वाळुंज,	टाटा व्हेन्चर ईएक्स ६+१ बीएस III नोंदणी क्र. एमएच २० डीएफ०३८९ नोंद दिनांक: २३-०२-२०१५ चेसिस क्रमांक: एमएटी४८३६०२ईवायएन१५४६१ इंजिन क्रमांक: ४७५आयडीटी१८एलव्हीवायएसबी८३९४ जसीची सूचनेची तारीख: १४.०५.२०१८ कब्जाची तारीख: ११.०७.२०१८ कब्जाचा प्रकार: प्रत्यक्ष	_				
	खाते: श्री. कैलास कचर दळवी (मे. कैलास टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स) पत्ता: सवित्रीबाई फुले नगर, वडगाव कोलाटी, वाळुंज,	टाटा व्हेन्चर ईएक्स ६+१ बीएस।॥ नोंदणी क्र. एमएच २० डीएफ०३८९ नोंद दिनांक: २३-०२-२०१५ चेसिस क्रमांक: एमएटी४८३६०२ईवायएन१५४६१ इंजिन क्रमांक: ४७५आयडीटी१८एलव्हीवायएसबी८३९४	_				

अटी आणि शर्ती: (१) ई-लिलाव हा सर्व ज्ञात भारांसह ''जे आहे जेथे आहे, जे आहे जसे आहे, जे काही आहे तथे आहे आणि कोणत्याही मदतीशिवाय तत्वाने'' करण्यात येईल आणि बॅक मत्तेला बाधीत नामाधिकार, शर्ती किंवा कोणत्याही अन्य वस्तुस्थितीसाठी जबाबदार राहणार नाही. वर दर्शवलेला तपशील हा बँकेकडील उपलब्ध माहितीनुसार दर्शविलेला आहे. लिलाव बोलीदाराने मालमत्तेचे प्रत्यक्ष मोजमाप आणि स्थितीबाबत स्वतःची खात्री करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष आणि मोजमाप आणि स्थितीमध्ये फरक असु शकतो आणि प्राधिकृत अधिकारी त्यासाठी जबाबदार राहणार नाही. लिलाव विक्री/बोली फक्त वेबसाईट https://www.ebkray.in मार्फत ''ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' प्रक्रियेमार्फत करण्यात येईल. (२) इएमडी रक्कम जनरेट केलेल्या चलानद्वारे एमएसटीसी कडे थेट जमा करायची आहे. ईएमडी वॉलेटमध्ये बोलीमध्ये सहभागी होण्यासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी इअर रक्कम दिसणे आवश्यक आहे. (३) लिलावाची तारीख आणि वेळ २५/०९/२०२४ <mark>रोजी स. ११.०० ते सायं. ५.०० (भाप्रवे) दरम्यान.</mark> प्रत्येकी १० मिनिटांचा अमर्याद विस्तार (४) लिलाव वरील नमूद राखीव किंमतीला सुरू होईल. बोलीदारांनी त्यांचे प्रस्ताव रु. १०,०००/– च्या पटीत वाढविणे आवश्यक आहे. (५) इच्छुक बोलीदारांने वैध ई-मेल आयडी धारक करणे आणि पोर्टल https://www.ebkray.in येथे त्यांचे नाव नोंदिवणे आणि एमएसटीसीकडून विनामूल्य युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविणे आवश्यक आहे, त्यानंतर त्याना ऑनलाईन ई-लिलावामध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात येईल. (६) संभाव्य बोलीदार पीएसबी अलायन्स ई–ऑक्शन पोर्टल द्वारे ईमेल support.ebkray@psballiance.com आणि कॉल सेंटर मुंबई +९१ ८२९१२२०२२० ऑनलाईन प्रशिक्षण घेऊ शकतात. (७) राखीव किंमतीच्या १०%ची इसारा अनामत रक्कम (ईएमडी) वलान जनरेट करून पीएसबी अलायन्स ई–ऑक्शन पोर्टल कडे ती जमा करण्यासाठी आरटीजीएस/एनईएफटी/युपीआय ॲप्लिकेशन मार्फत देय आहे. (८) बोली प्रपत्र हे सादर करण्याची अंतिम तारीख किंवा पूर्वी सदर सूचनेच्या अटी आणि शर्तीची स्वीकृती, आणि इएमडी भाणा केल्याचा तपशील (युटीआर क्र.), आयकर विभागाने जारी केलेल्या पॅनकार्डची प्रत आणि बोलीदारांच्या ओळखीचा पुरावा आणि निवासाचा पुरावा जसे की, पासपोर्ट, इलेक्शन कमिशन कार्ड, रेशन कार्ड, ड्रायर्ल्शि लायसन्स इ., सह ऑनलाईन अपलोड करणे आवश्यक आहे. (९) इएमडी रक्कम उच्चतम/यशस्वी बोलीदारांच्या प्रकरणात समायोजित करण्यात येईल, अन्यथा विक्री निश्चित झाल्यावर ई-वॉलेटमध्ये परत करण्यात येईल. इएमडी वर व्याज देय नाही (१०) इच्छुक पक्षकार साधारण २४/०९/२०२४ रोजी स. ११.०० ते द्. ४.०० दरम्यान प्रत्यक्ष ठिकाणी, मत्तेचे निरिक्षण करू शकतात. मत्तेच्या निरीक्षणासाठी कृपया संबंधित शाखेत संपर्क करावा (११) उच्चतम/यशस्वी बोलीदारांने अधिकाऱ्यांनी बोली स्वीकारल्यावर **मिळकतीच्या समोर नमुद केलेल्या संबंधित शाखेत** पुढील कामकाजाच्या दिवसापूर्वी/त्वरित अगोदर जमा केलेली इएमडी समायोजित करून विक्री किमतीच्या २५% टक्के जमा करणे आवश्यक आहे आणि विक्री किमतीच्या उर्वरित ७५% विक्रीपासून रूप दिवसांत किंवा पूर्वी किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या स्वतःच्या निर्देशाने आणि लेखी मान्य केलेल्या वाढीव कालावधीत जमा करायची आहे. यशस्वी बोलीदारांने प्रदानात कसूर केल्यास बोलीदारांने अगोदर जमा केलेली रक्कम जम करण्यात येईल आणि कसूरवार बोलीदारांचा मता/रकमेच्या संदर्भात कोणताही दावा राहणार नाही (१२) उच्चतम बोलीदाराना येथील नमूद मत्तेचे यशस्वी बोलीदार/खरेदीदार म्हणून घोषित करण्यात येईल भाग ते बोलीसाठी कायद्याने पात्र असावेत (१३) सदर सूचनेत काहिही घटीत नाही किंवा वरील मत्ता विक्रीसाठी बाँकेच्या वतीने कोणतेही आश्वासन किंवा सादरीकरण मानण्यात येई नये. बँक/प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना कोणतेही कारण न देता योग्य वाटलेल्या कारणांसाठी विक्री रद्द करण्याचा हक राखुन ठेवला आहे. आणि अशा रद्द करण्याचा वत बोलीदाराला प्रश्न विचारता येणार नाही. (१४) खरेदीदारांने मुद्रांक शुल्क/अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क/हस्तांतर प्रभार, शुल्क इ. आणि सर्व सांविधिक/ असांविधिक थकबाकी, कर, अभिहस्तांकन प्रभार, शुल्क इ. कोणांचीही देणी सुद्धा भरायची आहे. (१५) इच्छुक बोलीदारांनी बोली सादर करण्यापूर्वी मत्तेला बाधीत दावे/हक्क/थकबाकी आणि लिलावासाठी ठेवलेल्या मत्तेचे नामाधिकार, भारांच्या संदर्भात त्यांची स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक आहे. मत्ता बँकेला ज्ञात सर्व विद्यमान आणि भविष्याती भारांसह विकण्यात येईल. प्राधिकृत अधिकारी/तारण धनको कोणत्याही त्रयस्थ पक्षकाराचे दावे/हक/थकबाकी यासाठी कोणत्याही मार्गाने जवाबदार राहणार नाहीत. (१६) बँकेला यशस्वी बोलीदाराने केलेले विक्री मोबदल्याचे प्रदान हे इन्कम टॅक्स ॲक्ट, १९६१ च्या कलम १९४-१ए अंतर्गत टीडीएसच्या अधिन राहील आणि टीडीएस हा बोली रकमेच्या उर्वरित ७५% जमा करतेवेली फक्त यशस्वी बोलीदारांने भरायचा आहे लागु नसल्यास रद्द करावे. (१७) विक्रीसाठी प्रस्तावित मत्तेच्या विक्री मधून कोणताही वाद/तफावत उद्दभवल्यास फक्त औरंगाबाद येथील न्यायालय/ न्यायाधिकरणाच्या अनन्य अधिकरितेच्या अधिन राहील. (१८) बोलीदारांना नोंदणी आणि बोली मार्गदर्शनाकरिता https://www.ebkray.in ला भेट देणे आवश्यक आहे (१९) सूचनेचा इंग्रजी मजकुर आणि मराठी मजकुरात कोणतीही तफावत किंवा विसंगती आढळल्यास इंग्रजी मजकुर ग्राह्य

सरफैसी ॲक्ट २००२ च्या नियम ६ (२) आणि ९ (१) अन्वये ३० दिवसांची वैधानिक विक्री सूचना कर्जदार/हमीदार/गहाणवटदार यांना ई-लिलावाच्या तारखेपूर्वी वरील नमूद रकमेसह व्याज, इतर प्रभार आणि अनुषंगिक खर्च चुकता करण्यासाठी याद्वारे सूचित करण्यात येईल आणि उर्वरित थकवाकी काही असल्यास व्याज आणि

उर्वरित थकबाकी काही असल्यास व्याज आणि खर्चासह वसुल करण्यात येईल.

### विशेष माहिती /सावधानी

शेवटचे मिनिट/सेकंदाला बोली करणे त्यांच्या स्वतःच्या हितासाठी बोलीदारांनी टाळावे अशा वेळी विक्रेत्यांच्या वतीने बँक ऑफ इंडिया किंवा सेवा पुखठादार कोणतीही उणिव/कमतरता (इंटरनेट फेल्युअर, पॉवर फेल्युअर इ.) साठी जबाबदार राहणार नाहीत, या बाबतीत अशा आकस्मित घटना टाळण्यासाठी बोलीदार बॅक अप पॉवर सप्लाय आणि कोणतीही अन्य आवश्यक व्यवस्था/पर्याय करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. जेणेकरून त्यांना अशा आकस्मित घटना टाळन यशस्वीपणे लिलावात सहभागी होणे शक्य होईल.

दिनांक : २१/०८/२०२४ प्राधिकृत अधिकारी, बँक ऑफ इंडिया